



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 2—फरवरी 8, 2019 (माघ 13, 1940)  
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2019 (MAGHA 13, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और  
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

गृह मंत्रालय  
(महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली—03, दिनांक 11 जनवरी 2019

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2019/कार्मिक.1/38—राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को वेतन  
मैट्रिक्स लेवल-11 रु. 67,700—2,08,700/— में केओसुब में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके  
नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
1.	कुरियाकोस ऐलियास	व्यवस्था एवं क्रय शाखा बल मुख्यालय नई दिल्ली	02.01.2019 (पूर्वाह्न)

2. उक्त पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सेवा में आरक्षण संबंधी मामले में दिये जाने वाले आदेश के परिणाम के अधीन है।

ह./— अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी पंजीयक का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कानपुर-208001, दिनांक 17 जनवरी 2019

सं. एलसी/248(1)/7151—यह इस कार्यालय के तारीख 29.10.2018 कार्यालय सूचना संख्या 40 से 49, विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त हुए आवेदन प्रारूप एसटीके 2 में हैं, और तारीख 14.11.2018 को जारी प्रारूप एसटीके 6 में नोटिस के संबंध में है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियां प्रकाशन की तारीख से कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दी गयी हैं और उक्त कम्पनियों का नाम विघटन हो गया है।

S.No.	Subject	CIN	Company Name
1	U24233UP2015PTC075339		एलाना केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2	U24233UP2015PTC075188		फुलवारी ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड
3	U24233UP2015PTC075006		सुबाला लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U24233UP2015PTC070830		स्काईलैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
5	U24233UP2015PTC069368		ईश्वर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U24233UP2014PTC064578		बेलाक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
7	U24233UP2011PTC044526		गामा मेडिकेम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
8	U24233UP2010PTC042884		डायपासोर मिरर टच प्राइवेट लिमिटेड
9	U24231UP1991PTC012978		नार्क्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U24215UP1988PTC009473		कान्ती शान्ती डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U24139UP1985PTC007414		विर्नस रबर प्राइवेट लिमिटेड
12	U24123UP2001PTC025829		कन्हैया एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
13	U24110UP2016PTC087042		एसएमडीलाइफ साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
14	U22222UP2015PTC069527		अपना मीडिया फोकस प्राइवेट लिमिटेड
15	U22222UP2013PTC059351		न्यूस फ्लैश मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	U22222UP2013PTC056442		डिलिजेंट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
17	U22222UP2012PTC053800		हस्तक्षेप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	U22219UP2018PTC104230		मार्निंगसिटी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	U22211UP2013PTC060661		सॉसकी इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	U21098UP2010PTC041667		पेपियर्स फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U19120UP2011PTC043835		कानपुर टेनरीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
22	U18209UP2016PTC087132		न्यूफ्लैग्ड ट्रेण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U17299UP2017PTC091512		त्रिपाठिग क्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड
24	U16003UP1997PTC022907		सिंहानिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U15400UP2014PTC061676		संगम एग्रीफूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
26	U15400UP2013PTC060813		क्षीर बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
27	U01110UP2016PTC084637		रतन प्रिया आरगैनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U01119UP2016PTC083322		रुद्राग्रीन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
29	U01120UP2016PTC082975		अभय आरगैनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U01400UP2014PLC061817		इंद्राणी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
31	U01403UP2011PLC044895		रेसी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
32	U01403UP2011PTC046528		नंदिनी एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	U01403UP2011PTC047166		सुनहरा कल सुगंध प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
34	U01403UP2012PTC053534		वर्षाटाइल एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
35	U10200UP2016PTC087201		एसएसआरडी माइनिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
36	U14220UP2016PTC075784		श्री नारायण माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
37	U15122UP2012PTC050656		अपुल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U15122UP2013PTC057640		इम्पायर इंडोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U15122UP2015PTC072664		फलेवरेवेन्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U15129UP2017PTC090714		वेंडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U24233UP2016PTC075483		एक्सेनियम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
42	U24296UP2016PTC082942		एनवीके फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U25190UP2014PTC063906		शीतलरामा प्लास्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
44	U26912UP1998PTC023535		संकल्प एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U26960UP1991PTC012883		पराशर ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U26960UP2015PTC069002		ए बी बाथफिट प्राइवेट लिमिटेड
47	U27100UP2014PTC062402		विश्वेशराय इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
48	U27104UP1988PTC009347		वैराइटी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U27104UP2006PTC031443		जय सैनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
50	U28112UP2011PTC043314		गोरखपुर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
51	U28112UP2014PTC063774		डोरलाइन लाक्स एण्ड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड
52	U29119UP2016PTC083561		एनिको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
53	U29211UP1999PTC024613		श्री कृष्णा डीजल्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड
54	U29253UP2015PTC068746		इओले वाटर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
55	U29308UP1926PLC000316		अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाय कं0 प्राइवेट लिमिटेड
56	U30005UP2010PTC039694		शिश्न टेक्नो एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U31101UP1973PLC003818		प्रिंटिंग मशीन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
58	U31900UP2016PTC085830		हार्डटेक सोलर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U31908UP2015PTC071516		मैक पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
60	U31908UP2015PTC073028		शुभ स्वास्तिक होम एप्लायन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U31908UP2016PTC075479		हमसिनी सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
62	U32109UP2014PTC062844		एबेनिको लाइटस सिल्वरलीफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U33110UP2009PTC038797		सिल्वरलीफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U33111UP2015PTC072924		रेडेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U33201UP1972PTC003593		फैरिटस एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U36109UP2016PTC087704		कल्चर विण्डो प्राइवेट लिमिटेड
67	U36993UP2011PTC044691		एम्बिक रैमिडीस प्राइवेट लिमिटेड
68	U37100UP2009FTC037924		मैरिस एनवायरोंमेंट प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
69	U40300UP2016PTC086333		व्हाट्सफेयर इर्नजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
70	U45101UP1996PTC019502		कार्बेट काउण्ट्री रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
71	U45201UP1990PTC011940		ट्रम्प सीमेंट एण्ड कान्सट्रक्शन कं0 प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
72	U45201UP1992PTC014004		ओथ काम्बिन प्राइवेट लिमिटेड
73	U45201UP1996PTC020908		दशमेश कन्सट्रक्शन एण्ड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U45201UP2005PTC029502		टोपेण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
75	U45201UP2005PTC030449		उर्मिला शैल्ट्रस प्राइवेट लिमिटेड
76	U45201UP2005PTC046485		ग्यानचंदानी हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
77	U45201UP2006PTC031305		श्री हरी सिविलटेक प्राइवेट लिमिटेड
78	U45201UP2006PTC032407		श्री सागर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
79	U45201UP2014OPC064903		वी ड्रीम कन्सट्रक्शन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
80	U45201UP2014PTC062189		विब्रान्त इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	U45400UP2013PTC059442		कानफियेन्स हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
82	U45400UP2013PTC059631		एक्यूमेन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U45400UP2014PTC065233		कार्तिक बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
84	U45400UP2014PTC065814		मार्ग दाद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
85	U45400UP2014PTC066868		सी4एस कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
86	U45400UP2014PTC067401		संतुष्टि इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U45400UP2016PTC084314		इमोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
88	U45401UP1993PLC015573		श्री श्याम इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
89	U45500UP2016PTC084691		आरुश एण्ड हर्षित कान्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U50102UP2004PTC028523		श्री रामबली मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U50500UP2017PTC091018		न्यू एबीएस सेल्युशन आटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U51101UP2012PTC052286		ओएके लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
93	U51101UP2012PTC053702		जीपी रिटेलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
94	U51101UP2013PTC054770		एसोसियेटेड फ्रैंड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
95	U51101UP2013PTC055323		वाइस मू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U51101UP2013PTC057802		बालाजी डिवाइन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U51101UP2015PTC073769		मिनडोस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
98	U51101UP2016PTC077078		तलन एक्विजम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
99	U45400UP2011PTC047517		महेश इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
100	U45400UP2011PTC047521		महेश इन्फ्राहाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
101	U45400UP2012PTC050652		जीएस इन्फ्राइस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
102	U45400UP2012PTC051882		एलएसआरएस रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
103	U45400UP2013PLC057632		सूर्यदर्शन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
104	U45400UP2013PTC055586		केआरएस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
105	U45400UP2013PTC055691		प्लाजाप्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
106	U45400UP2013PTC058501		विजय कुमार यादव कान्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड
107	U45400UP2013PTC059287		साई भगवान इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
108	U45202UP2014PTC063860		आकर्षकमल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U45202UP2014PTC063996		एवीएस बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
110	U45202UP2014PTC064411		ला-इम्प्राटेल र्पक्स एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड
111	U45203UP2016PTC086428		टीटीडी रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
112	U45204UP2013PTC060459		असरानी हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
113	U45309UP2016PTC083091		प्रतीक इंफ्रासेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
114	U45400UP2009PLC038733		एलिएन्स टाउनप्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
115	U45400UP2009PTC038156		अमन इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड
116	U45400UP2010PTC040869		टेकरीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
117	U45400UP2011PTC043921		शंकर इन्फ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
118	U45201UP2014PTC062814		एमएसएस इंफ्राटेक पावर प्राइवेट लिमिटेड
119	U45201UP2014PTC064776		स्वास्ति वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
120	U45202UP2013PTC061050		बालाजीशक्ति कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
121	U55204UP2016PTC076609		खण्डेलवाल हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड
122	U63022UP2004PLC028576		सूरज शीतालय प्राइवेट लिमिटेड
123	U63030UP2017PLC094076		इण्डोस्पायर जर्नी प्राइवेट लिमिटेड
124	U63090UP2009PTC036727		दुर्जय इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
125	U63090UP2010PTC042514		इदीवेयर ट्रवेल्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U63090UP2011PTC043675		फलकान एयरव्याजेस प्राइवेट लिमिटेड
127	U63090UP2014PTC067183		जीके ग्लोबल टूर प्लानर प्राइवेट लिमिटेड
128	U63090UP2015PTC070946		नोमैडिक हालीडे सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
129	U64204UP2012PTC050573		हैवी टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
130	U64204UP2013PTC058971		एडेक्टवीजन टेक्नोलॉजिस एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
131	U64204UP2015PTC071661		श्री नारायण कामटेक प्राइवेट लिमिटेड
132	U65110UP1993PTC015478		जेपी हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
133	U65921UP1925PTC000288		जैन एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
134	U65923UP2015PLC071061		आयुष एण्ड निधि लिमिटेड
135	U65991UP2014PLC066678		यूनिटी म्यूचुअल निधि लिमिटेड
136	U65991UP2014PLC066898		पंचमुखी निधि प्राइवेट लिमिटेड
137	U65991UP2015PLC073300		आंचल इण्डिया निधि लिमिटेड
138	U67190UP1995PTC018380		डेयरी फन फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U55204UP2013PTC054524		तथागत होटल प्राइवेट लिमिटेड
140	U55204UP2014PTC065205		ग्रैनो इन्स एण्ड सूट्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U55204UP2015PTC070742		एनएमएस रिसार्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U51102UP1998PLC023186		डायनामिक पब्लिकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
143	U51109UP1987PTC009203		सपना पैलेस टाकीज प्राइवेट लिमिटेड
144	U51226UP1997PTC022525		मां कात्यायिनी इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
145	U51397UP2005PTC030069		मैपेल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
146	U51909UP2016PTC087936		केयरफुल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U51909UP2018PTC102480		इलूमाइन कास्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U52100UP2009PTC039058		कमला आहार सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
149	U52100UP2012PTC050699		हीरावाला ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
150	U52100UP2012PTC054230		ट्रजानयाक्रपा मार्केटिंग एण्ड इंफ्राइस्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड
151	U52100UP2014PTC064893		लुनार ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
152	U52100UP2014PTC066875		इलेक्ट्रिक क्राफ्टस प्राइवेट लिमिटेड
153	U52100UP2015PTC072908		किमिन् आनलाइन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
154	U52392UP2005PTC030211		पिक्सेल कम्प्यूनिकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
155	U52601UP2016PTC087965		आनलाइन सेल्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
156	U52609UP2016PTC084834		लोकल मेडिकल स्टोर मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड
157	U52609UP2017PTC091367		चौधरी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
158	U55101UP1992PTC014021		पुरुषोत्तम होटल प्राइवेट लिमिटेड
159	U55101UP2005PTC029433		अपना होटल एण्ड रेस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड
160	U55101UP2016PTC084569		अरुगविजय हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
161	U70100UP2013PTC061073		रुद्र शिवा इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
162	U70100UP2013PTC061384		आर के अमान इंफ्रा बिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
163	U70100UP2014PLC063175		रियल ग्रीन रियल स्टेट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
164	U70100UP2014PTC062368		सेलीब्रस इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
165	U70100UP2014PTC062510		एसोटेक ड्रीम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
166	U70100UP2014PTC062639		स्टाक्र रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
167	U70100UP2014PTC062904		लक्समिडास इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
168	U70100UP2014PTC063462		वासुदेवकृष्णा इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड
169	U70100UP2014PTC063463		वासुदेवकृष्णा रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
170	U70100UP2014PTC063470		एसजेएन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
171	U70100UP2014PTC063542		ट्रिलाजी स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
172	U70102UP2010PLC041926		वेकेएस इंफ्राडेवलपर्स लिमिटेड
173	U70102UP2010PTC041098		शिवमटेक कान्सट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
174	U70102UP2011PLC046892		धेनु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
175	U70102UP2011PTC043714		आईपी ओमजा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U70102UP2011PTC043897		ब्रह्मा इंफ्रा बिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
177	U70102UP2011PTC045800		श्री साई बाबा लैण्ड प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड
178	U70102UP2011PTC045873		प्रभू इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
179	U70102UP2011PTC046407		शुभी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
180	U70102UP2011PTC046572		यदूवंशी कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U70102UP2011PTC046589		यदूवंशी बिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
182	U70102UP2011PTC047875		प्रभू इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
183	U70102UP2012PTC049142		रियलिस्टिक लैण्डमाक्र प्राइवेट लिमिटेड
184	U70102UP2012PTC049146		डान इण्टरप्रासेस प्राइवेट लिमिटेड
185	U70102UP2012PTC049198		रायल अवध लैण्डमाक्र प्राइवेट लिमिटेड
186	U70102UP2012PTC050569		पीबीएडी इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
187	U70102UP2012PTC050853		स्पर्श इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
188	U70102UP2012PTC051661		राजधानी इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
189	U70102UP2012PTC051719		ओजे इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
190	U70102UP2012PTC051948		कामरेड रियलट्रस प्राइवेट लिमिटेड
191	U70102UP2012PTC052007		अर्थ इंफ्राटाउन प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
192	U70102UP2012PTC054391		सिनोयुम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
193	U70102UP2013PLC059506		सेवियर रियलस्टेट लिमिटेड
194	U70102UP2013PLC059670		देवाश्रेय इंफ्राबिल्ड लिमिटेड
195	U70102UP2013PTC054739		मिनरेटस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
196	U70102UP2013PTC057066		शामियाना रियलट्रस प्राइवेट लिमिटेड
197	U70102UP2013PTC057166		कैसेलप्रीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
198	U70102UP2013PTC057556		श्रीक्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
199	U70102UP2013PTC057968		पीडीएम टेक प्राइवेट लिमिटेड
200	U70102UP2013PTC058034		अनिका रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
201	U70102UP2013PTC058216		बापू प्लानर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
202	U70102UP2014PLC065987		स्काईस्टार इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
203	U70102UP2014PTC065379		राहुलगोल्डेन इंफ्राटेक रियल प्राइवेट लिमिटेड
204	U70102UP2014PTC066240		जेनकान इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
205	U70102UP2014PTC066732		जैएसएसआर स्काईहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
206	U70102UP2014PTC067815		एसडीएस इंफ्रावेंचर प्राइवेट लिमिटेड
207	U70102UP2014PTC067841		सुपरवीजन इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
208	U70102UP2015PLC075282		यूएस इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U70102UP2015PTC068127		आरिन्डम भूमि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
210	U70102UP2015PTC068410		अक्सरा बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
211	U70102UP2015PTC070159		लाला मानसराम रीयल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
212	U70102UP2015PTC071732		परमहंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
213	U70102UP2015PTC072399		प्रोपेक्स कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
214	U70102UP2015PTC072671		सनातन बिल्डजोन प्राइवेट लिमिटेड
215	U70102UP2015PTC072816		हनुमान क्रिपा इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
216	U70102UP2015PTC073919		एसएसएच इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
217	U70102UP2015PTC073994		आकाशदीप इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
218	U70102UP2015PTC074369		ओजसविनलाईफ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
219	U70102UP2015PTC074918		अहमद बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U70102UP2016PTC075555		सिल्वर मैन रीयल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
221	U70102UP2016PTC077376		सम्ब्रद्धी हाउसिंग एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
222	U70109UP2016PTC083390		सिद्धीद्रात्री अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
223	U70109UP2016PTC084282		डायल 4 प्रापटी प्राइवेट लिमिटेड
224	U70109UP2016PTC088069		स्टोन विला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
225	U70200UP2017PTC095936		नित्यानन्द आश्रम प्राइवेट लिमिटेड
226	U72110UP1997PTC022096		नरेश कूरुगेटेड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
227	U72200UP2016OPC082952		अरविन्दम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
228	U72200UP2016PTC083645		बेस्टमबेस्ट इन्टरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
229	U72300UP2006PTC031201		ओम हरी इन्फोसाल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
230	U72300UP2012PTC051112		एचक्यूवीएफएक्स कम्प्यूटिंग लैब प्राइवेट लिमिटेड
231	U72300UP2012PTC051905		क्वादरा कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
232	U72300UP2013PTC058625		विबरान्त इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
233	U72300UP2013PTC059849		एकेएस टू रे टेली इन्फो प्राईवेट लिमिटेड
234	U72300UP2014PTC065272		टेक्नोक्रेटिक ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड
235	U72300UP2014PTC065763		गियरान आईटी साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
236	U72300UP2014PTC066533		वाईबे लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
237	U72300UP2014PTC066609		अदियूट्रिक्स आनलाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
238	U72300UP2014PTC066905		अपोगी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
239	U72300UP2015PTC068776		अडिक्टो टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
240	U72300UP2015PTC069726		डीजेपी टेक्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड
241	U70102UP2013PTC058216		काम्ब आई साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
242	U70102UP2014PLC065987		फेलिक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
243	U70102UP2014PTC065379		रामपाल सिंह मुख्तार अहमद साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
244	U70102UP2014PTC066240		आलरिक इन्फारमेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
245	U70102UP2014PTC066732		पिकजेट साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
246	U70102UP2014PTC067815		आईटिरियम ग्लोबल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
247	U70102UP2014PTC067841		स्वारलाईट टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
248	U70102UP2015PLC075282		बी 2 एम ग्लोबल साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
249	U70102UP2015PTC068127		निधि डिजिटैलिबी प्राईवेट लिमिटेड
250	U70102UP2015PTC068410		एसएनएम डिजिटल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
251	U70102UP2015PTC070159		रिच्युअल टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
252	U70102UP2015PTC071732		डोमैनसोपर्स (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
253	U70102UP2015PTC072399		टेक्नाउन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
254	U70102UP2015PTC072671		सिनापिया टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
255	U70102UP2015PTC072816		प्राविस बिजनेस साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
256	U70102UP2015PTC073919		एम वेब टेक प्राईवेट लिमिटेड
257	U70102UP2015PTC073994		अरजनएक्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
258	U70102UP2015PTC074369		सम्प्रीती इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
259	U70102UP2015PTC074918		मिस्टीरियस बिजनेस साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
260	U70102UP2016PTC075555		जिनीब्रेन प्राईवेट लिमिटेड
261	U70102UP2016PTC077376		स्टाइगसिस टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
262	U70109UP2016PTC083390		राईजिंग स्टार मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
263	U70109UP2016PTC084282		गोल्डेनमैचा टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
264	U70109UP2016PTC088069		अपना प्रोडक्शन एण्ड प्रिन्टमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
265	U70200UP2017PTC095936		लालचन्द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
266	U72110UP1997PTC022096		लाइब्ररी शेयर्स एण्ड सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
267	U72200UP2016OPC082952		एचपी मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
268	U72200UP2016PTC083645		जेट स्टार ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट आफ मर्चेंट नैवी प्राईवेट लिमिटेड
269	U72300UP2006PTC031201		समरिद्धी फिल्म को प्राईवेट लिमिटेड
270	U72300UP2012PTC051112		सैनटिनो बुक्स सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
271	U72300UP2012PTC051905		सीमीइन्डिया इन्टर प्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड



S.No.	Subject	CIN	Company Name
272	U72300UP2013PTC058625		नेक्स्ट आरवित वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
273	U72300UP2013PTC059849		आक्सा टुबैको प्राईवेट लिमिटेड
274	U72300UP2014PTC065272		एमबीएससी प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
275	U72300UP2014PTC065763		सुपर बायोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड
276	U72300UP2014PTC066533		3एमबी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
277	U72300UP2014PTC066609		टरबोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
278	U72300UP2014PTC066905		सोशल ग्रीन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
279	U72300UP2015PTC068776		गार्डिनियोलाईफ साईन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
280	U72300UP2015PTC069726		टियारा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
281	U74120UP2015OPC071312		नारायनसिंह सिक्योरिटी सर्विसेज (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
282	U74120UP2015PTC068543		ट्रोल इण्डिया मल्टी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
283	U74120UP2015PTC068748		विजयालक्ष्मी सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
284	U74120UP2015PTC068956		कैपिज प्रीकास्ट साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
285	U74120UP2015PTC068964		मनीभूषन गेम्स एण्ड ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड
286	U74120UP2015PTC069378		आद्याशक्ति ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
287	U74120UP2015PTC069581		ईडलिनएक्स प्राईवेट लिमिटेड
288	U74120UP2015PTC069729		इडोसेन्ट आनलाईन साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
289	U74120UP2015PTC070603		सेल्समाट्र सिकिल डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
290	U74120UP2015PTC071298		लेवीनेशन ई-टेक प्राईवेट लिमिटेड
291	U74120UP2015PTC071670		गुलमोहर इन्सेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
292	U74120UP2015PTC071812		खदर रिटेल एण्ड इक्पट्रस प्राईवेट लिमिटेड
293	U74120UP2015PTC072525		अरू एडवेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
294	U74120UP2015PTC072857		रीयल अर्थ जियो टेक प्राईवेट लिमिटेड
295	U74120UP2015PTC075288		एडीएडी फिनवेस्ट कन्सल्टैन्ट प्राईवेट लिमिटेड
296	U74120UP2016PTC075471		रोबोस्टाट्र टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
297	U74120UP2016PTC076139		रेनेवल इण्डिया इण्डस्ट्रीयल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
298	U74120UP2016PTC076369		बैली हू लैब्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
299	U74120UP2016PTC076697		मैक्जोक्यू टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
300	U74120UP2016PTC077303		माईक्रोस्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
301	U74120UP2016PTC077346		जैसपर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
302	U74140UP1989PTC010726		इन्जटेक इन्जिनीरिंग प्राईवेट लिमिटेड
303	U74200UP2010PTC041048		सिनर्जिक ग्रीजटेक प्राईवेट लिमिटेड
304	U74210UP2008PTC036305		श्री साईशिव इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
305	U74900UP2008PTC036117		सिल्वर स्पीयर साल्यूशन्स एण्ड मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
306	U74900UP2009PTC037983		न्यूमेरो यूएनओ रीयल स्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
307	U74900UP2010PLC042040		बोन्ने फारच्यून इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्राईवेट लिमिटेड
308	U74900UP2010PTC039478		कोहिनूर वाइब्रीफाईड टाईल्स एण्ड श्रेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
309	U74900UP2010PTC040482		वेक्टर कैपिटल एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
310	U74900UP2010PTC041129		आवाज इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
311	U74900UP2010PTC041789		बैली हू लैब्स साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
312	U74900UP2010PTC042833		मैक्जोक्यू टेक्नोलाजीज प्राईवेट लिमिटेड
313	U74900UP2011PTC043318		माईक्रैस्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
314	U74900UP2011PTC046740		जैसपर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
315	U74900UP2013PTC058294		इन्जटेक इन्जिनीरिंग प्राईवेट लिमिटेड
316	U74900UP2013PTC060381		सिनर्जिक ग्रीजटेक प्राईवेट लिमिटेड
317	U74900UP2014PTC063396		इवरग्रीनवैली एगो प्राईवेट लिमिटेड
318	U74900UP2014PTC063397		विध यांत्रिक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
319	U74900UP2014PTC064131		टाईमग्लोबल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
320	U74990UP2007PTC033453		मोक्ष इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
321	U74992UP2009PTC039101		अवध बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
322	U74992UP2010PTC040103		एम.एस. टेक्नोसाल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
323	U74999UP2006PTC031296		अपना व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
324	U74999UP2008PLC035506		गुरु कृपा व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड
325	U74999UP2011PTC046973		इन्जीनियर्स इन्टेग्रीटी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
326	U74999UP2011PTC047236		श्री शुनियो जी एगो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
327	U74999UP2014PTC063487		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
328	U74999UP2015PTC074786		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
329	U74999UP2016OPC082867		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
330	U74999UP2016OPC087961		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
331	U74999UP2016PTC083166		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
332	U74999UP2016PTC083169		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
333	U74999UP2016PTC084064		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
334	U74999UP2016PTC084147		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
335	U74999UP2016PTC084882		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
336	U74999UP2016PTC085182		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
337	U74999UP2016PTC085823		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
338	U74999UP2016PTC085965		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
339	U74999UP2016PTC086545		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
340	U74999UP2016PTC086744		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
341	U74999UP2016PTC086772		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
342	U74999UP2016PTC087258		इनसिगमा सार्विस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
343	U74999UP2016PTC087609		आईटेल कम्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
344	U74999UP2016PTC087647		स्माट्रहोम अप्लाइसेज एण्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
345	U74999UP2016PTC087912		सीआरआईओ सपोर्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
346	U74999UP2016PTC088702		यूएसएबी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
347	U74999UP2017OPC092156		पहला कदम इवेन्ट्स (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड
348	U74999UP2017PTC091667		वीराहत इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
349	U74999UP2017PTC091984		चिमनी हिल्स फूड एण्ड बेवरेजेज प्राईवेट लिमिटेड
350	U74999UP2017PTC092105		अल्वा सोलर लाईट प्राईवेट लिमिटेड
351	U74999UP2017PTC093311		श्रीसाईसमरिद्वी एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
352	U74999UP2017PTC093372		स्काईलाईन रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
353	U74999UP2017PTC093483		टादविका4 आनलाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
354	U74999UP2017PTC093675		क्राफ्टोस सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
355	U74999UP2017PTC094046		कोट्टयाड्र प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
356	U74999UP2017PTC095322		बघेल वक्रस एडीडीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
357	U74999UP2017PTC095630		अभावी वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
358	U74999UP2017PTC095661		मिनार ओवरसीज रिक्रूटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
359	U74999UP2017PTC098188		इमरजेन्स लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
360	U74999UP2018PTC103691		आरएफ कैरियर प्वाइन्ट कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
361	U74999UP2018PTC103863		काशीनाथ आटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड
362	U80211UP2014PTC061991		एजीआरवी टेक्निकैलिट्स प्राईवेट लिमिटेड
363	U80211UP2014PTC062738		ए.पी.डी.आई.एजुसाल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
364	U80904UP2012PTC050487		लीडिंग इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल कोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड
365	U80904UP2012PTC052584		बालाजी गोपाल सर कोचिंग इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
366	U80904UP2014PTC065110		इडिक्टेड एडवाइजरीज प्राईवेट लिमिटेड
367	U80904UP2014PTC067343		जागोया एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
368	U80904UP2017PTC090905		पोट्र एजेकेशन प्राईवेट लिमिटेड
369	U85100UP2007PTC033735		पी. एम मेडिकल सिस्टम एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
370	U85110UP2017PTC092143		बास्कर लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
371	U85120UP2016PTC085982		इस्केवी बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
372	U85191UP2010PTC040027		अभीराजी हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
373	U85191UP2012PTC051333		पैन एजुकेशनल एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड
374	U85191UP2015PTC068518		शुभआरध्या बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
375	U85191UP2015PTC071438		अपसर्जलैब हेल्थकेयर साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
376	U85191UP2015PTC072533		आरवी क्वायनेज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
377	U92100UP2014PTC061803		फस्ट स्टेप प्रस्तावना मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
378	U92111UP2003PTC027178		वेदांत विजन प्राईवेट लिमिटेड
379	U93000UP2013PTC060892		सतीजा इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
380	U93000UP2017PTC091084		सार्प होम केयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
381	U93030UP2004PTC029355		चरनजीत इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
382	U93030UP2011PTC045263		जेटस्टार ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आफ ऐयरोनाटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
383	U93030UP2012PTC049071		ऐसटर्म साफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
384	U93030UP2013PTC056394		जादौन इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
385	U93030UP2015OPC068922		उन्नती इण्डिया मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)
386	U93030UP2015OPC069493		समर (इण्डिया) वाटर प्योरीफायर प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)
387	U93030UP2015OPC070940		टरमिनलऐप्स साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)
388	U93030UP2015OPC071328		एमपावर वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)
389	U93030UP2017PTC097788		एटीसीआई ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड

S.No.	Subject	CIN	Company Name
390	U93090UP2007PTC032952		ट्रेन्ड सेटर प्रोडक्ट चैन्स प्राइवेट लिमिटेड
391	U93090UP2016OPC083125		इन्फैबल मैगनेट प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
392	U93090UP2017OPC095731		श्री द्योमी महाकाली मल्टीसर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
393	U93090UP2017PTC095549		आत्मन अपारेल्स प्राइवेट लिमिटेड

सुधीर कपूर  
कम्पनी पंजीयक  
उत्तर प्रदेश

“प्रारूप संख्या एसटीके-6”

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

जम्मू एवं कश्मीर, दिनांक 28 जनवरी 2019

सं. एसटीके-6/आरओसी/जेएमयू/एसटीके-2/2018—(1) इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २४८(२) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों ने कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरम्भ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती २ वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ४५५ के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटने के प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी अप्पत्ति भेज सकता है।

क्रम संख्या	सरण	फॉर्म	कंपनी नाम
1	H22494405	फॉर्म ST-2	व् स र ग फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	H21478086	फॉर्म ST-2	ज स क ग्लोबल मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	G92434323	फॉर्म ST-2	समीक अकादमी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4	H01639137	फॉर्म ST-2	एबीज़ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
5	H34557249	फॉर्म ST-2	म क म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	G89119689	फॉर्म ST-2	हिमालय इन्फ्रादेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	G92238369	फॉर्म ST-2	आर्यन इंफ्रास्ट्रक्चर & कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
8	H05429766	फॉर्म ST-2	अल -वदूद कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
9	G92434430	फॉर्म ST-2	ग्रीन हितेश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
10	G91812933	फॉर्म ST-2	बासित प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
11	G92434711	फॉर्म ST-2	एस्ट्रल फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

रुवित कुमार  
कम्पनी पंजीकार  
जम्मू और कश्मीर

## काटने या हटाने की सूचना

[एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 75 और नियम 37 लिमिटेड लाबिलिटी पार्टनरशिप नियम 2009 अनुसरण में]

लिमिटेड लाबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 और निम्नलिखित एलएलपीज़

पटना-800001, दिनांक 2 जनवरी 2019

सं. आरओसी/पैट/एलएलपी/एल-24/स्ट्राइक ऑफ/2018/2430---

क्र.सं.	एलएलपी का नाम	एलएलपीइन	एसआरएन
1.	एनामेल डेन्टल लैब एलएलपी	AAH-3957	M07349921
2.	स्काईनेटेक ग्लोबल एलएलपी	AAF-7203	M07584691
3.	लमोडे कंसलटिंग इंजीनियर एलएलपी	AAC-6165	M06308688
4.	टमीरा सौपट एलएलपी	AAA-8139	M06548887
5.	क्रियेटिव क्रो एलएलपी	AAD-9116	M06491088

यह इस कार्यालय के सूचना सं. आरओसी/पैट/एलएलपी/स्ट्राइक ऑफ/आर-37 तारीख 08.08.2018, 27.06.2018 के संदर्भ में और आवेदन (फार्म 24) तारीख 04.06.2018, 04.07.2018, 02.04.2018, 05.05.2018, 30.04.2018 सूचना प्रकाशित की जाती है कि लिमिटेड लाबिलिटी पार्टनरशिप धारा 75 के अनुसार ऊपर दर्शाये गए नाम को दिनांक 02.01.2019 से रजिस्टर से हटा और विघटित माना जाए।

हिमांशु शेखर  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार

## फार्म नं. एसटीके - 7

## नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

कम्पनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में

सं. एसटीके-7/क.पं.(बै)/2019/2/2781—कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनियों के नामों को हड़पने या हटाने के मामले में सूचना के अनुसार, रजिस्ट्रार कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत उपर्युक्त कंपनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, ताकि वे अपने नामों को कंपनियों के रजिस्ट्रार से हटा दें, अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू करने में असफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी (ए) किसी वित्तीय या पिछले दो वर्षों की अवधि के लिए किसी भी व्यवसाय या संचालन नहीं ले रही है और/ने कोई आवेदन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 या कंपनी (ए) की धारा 455 के तहत एक निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त की है, लेकिन यह/वे कंपनियों के रजिस्ट्रार से अपनी/अपने पंजीकरण जारी रखना चाहते हैं नहीं हैं और इसलिए कंपनियों के रजिस्ट्रार से अपने/उनके नामों को हटाने/स्ट्राइक बंद करने का अनुरोध किया है।

2. तदनुसार, कि निम्नलिखित कंपनियों को आज की तारीख 08.01.2019 को कंपनी रजिस्टर कंपनियों के रजिस्ट्रारों से हटाया गया है एवं उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं।

## प्रारूप सं. एसटीके - 7

## नाम हटाना और विघटन की सूचना

सं. क.पं./बै/(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और नियम 9 के अनुसरण में (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का

नाम हटाना) नियम, 2016), यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम

तारीख 08.01.2019 से कम्पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कम्पनी का विघटन हो गया है।

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
1	U74999KA2016PTC092699	टेक्सटी एजुसर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
2	U74900KA2016PTC085476	उदयती विहास्ता प्राइवेट लिमिटेड
3	U74999KA2016PTC095096	66 हॉस्पिटालिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4	U74900KA2012PTC064893	कैलरशॉट्स कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	U80902KA2016PTC092595	कॉल्लेज़स्नीपर प्राइवेट लिमिटेड
6	U74120KA2012PTC067470	टीम ग्लोबल वाकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U74900KA2015PTC081910	गॉब्समैकड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
8	U72900KA2013PTC071003	कोग्नीब्लूम वेब टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
9	U72200KA2005PTC037597	मॅजिक लाम्प सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
10	U74900KA2015PTC081932	यूवोईएम करियर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U74900KA2015PTC081811	यूवोईएम मीडिया सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U74999KA2016PTC096112	ईआरपीजीक्स टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
13	U74900KA2013PTC069885	वेडिक वास्तु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	U63013KA2008PTC044885	एयरओन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
15	U72200KA2012FTC064706	कॉन्ट्रैडल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	U74900KA2013PTC072584	एस.एम.स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	U72900KA1999PTC025644	श्रीनाथ इन्फर्मेशन आंड कम्यूनिकेशन्स रिसर्च सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U70109KA2017PTC100319	सेलेक्टिवअर्त प्राइवेट लिमिटेड
19	U72200KA2015PTC079267	रैओ टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
20	U51909KA2016PTC093599	अव्वानत एलेक्ट्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
21	U74900KA2013PTC067549	ए.डब्ल्यू. ट्रेडिंग आंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U70102KA2014PTC076345	समन्विटा शेलटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U72200KA2010PTC055766	इंद वेब प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200KA2017FTC102896	मिल्विक टेक्नोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900KA2008PTC048139	इनक्रेडिबल इन्स्पिरेशन्स फीनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
26	U22210KA1975PTC002879	थि जया कर्नाटका न्यूज प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U63040KA2014PTC075412	पीजीएस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U51109KA1996PTC020737	पंचा रत्ना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
29	U01403KA2012PTC066300	रास्दर्शन अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
30	U72200KA2013PTC072186	परेनथिसीज़ टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
31	U80300KA2009PTC050891	रेड्डी'स एजुकेशनल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
32	U26957KA1973PTC002315	सर्वो कॉर्पोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U45202KA2008PTC048579	सेक प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
34	U72200KA2009PTC050739	एकांदोर आइटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U15500KA2000PTC026391	जूनिपर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U72200KA2017PTC100681	फीडज़ील टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
37	U72200KA2008PTC045291	क्ले-टोकन्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
38	U72200KA2013PTC068509	प्रोथॉट्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U29299KA1999PTC026129	प्रोटेक फॅब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
40	U74900KA2009PTC051607	धी टेकनो लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
41	U73200KA2013PTC070787	पिकलौड डिज़ाइन लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U02001KA1995PTC017658	चेलवारा प्लेनटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
43	U72501KA2017PTC100992	एमएस इन्फर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
44	U85110KA1991PTC012418	पूर्णमा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
45	U85100KA2008PTC047392	श्लोकास फिटनेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
46	U45205KA2016PTC085814	इंफ्लिमेंटिंग थॉट्स कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
47	U29140KA2010PTC054875	स्ट्रीम्मेक्स इंजिनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
48	U01118KA2007PTC043831	सेल्लेंट बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
49	U74900KA2015PTC081405	चेककू टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
50	U18101KA2006PTC038177	वी5 फॅशनस प्राइवेट लिमिटेड
51	U45205KA2015PTC081407	एनट्री इंफ्रा सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U72200KA2011PTC059415	फिनायना सॉफ्टवेयर & सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
53	U74999KA2007PTC044745	रोभट: रोबोटिक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U72200KA2011PTC056545	डिजीएलियन ई-क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U15122KA2011PTC057959	ऑंकार शुगर्स आंड पॅवर प्राइवेट लिमिटेड
56	U40101KA2006PTC038494	शकुंतलाम पॅवर प्राइवेट लिमिटेड
57	U72900KA2015PTC079307	ट्रपाट टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
58	U74900KA2014PTC077514	सेवाऑनडिमान्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
59	U85110KA1996PLC019620	कल्याणी हॅबिटेड लिमिटेड
60	U85110KA1996PLC019624	कल्याणी हाइवे डेवलपर्स लिमिटेड
61	U51909KA2017PTC100870	आर्चीटा ग्लोबल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
62	U67120KA2008PTC048734	के नारायाणा स्टॉक्स आंड शेर्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U72200KA2014PTC077792	इंस्टाशोप्पी टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
64	U72400KA2007PTC043808	एनजीनिया लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U80301KA2010PTC055213	फ्रीवेक्टॉर एजु वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U72400KA2014PTC076483	ग्लेडेल टेक प्राइवेट लिमिटेड
67	U63040KA2012PTC063678	मै हॉलिडेज़ मै वे प्राइवेट लिमिटेड
68	U74900KA2012PTC062574	ग्रीनफिन इम्पेक्ष ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
69	U45200KA2012PTC064253	माकेर्सबेस्ट बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
70	U74140KA2014PTC073066	अवीघ्ना क्रेआटिवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
71	U93090KA2017PTC100998	वाल्टेक कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
72	U63022KA1971PTC002043	बिनगा आइस आंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
73	U72200KA2015PTC081415	अलटीयोर डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U45200KA2015PTC084990	प्लाटीनफेतर्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
75	U74999KA2017PTC101962	क्विलटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
76	U70100KA2014PTC076285	प्रोपमॉक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
77	U72200KA2015PTC078196	न्योबोर्ग टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
78	U45309KA2016PTC092750	भारत प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U72200KA2003PTC031971	क्लौड 9 हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
80	U72200KA2012PTC064343	एडज़िल्ला सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
81	U72200KA2015PTC081226	क्युरेटीन टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
82	U45200KA2014PTC074617	आर्या तेजस डेवलेपर्स आंड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U22300KA2005PTC036188	स्क्रिप्ट आंड डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U74900KA2014OPC076063	जी-मार्टेक टेक्निकल कन्सल्टेन्सीस आंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
85	U26933KA2013PTC068612	सन्फा पीयेरा प्राइवेट लिमिटेड
86	U02001KA2008PTC046113	यामिनी अग्रो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
87	U73100KA2012FTC067065	नॉवेल क्लिनिकल रिसर्च (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
88	U74140KA2005PTC037485	अककुडॉट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
89	U72200KA2015PTC083098	अर्थाओरा टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
90	U01010KA2005PTC035816	ट्रैन्सिट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
91	U24248KA2007PTC043115	फ्लॉरिबंडा फ्रेगरेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
92	U80903KA2008PTC047771	कॉलेज फॉर लांग्वेज आंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड
93	U45205KA2014PTC076422	रिशा कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U72200KA2013PTC069571	साक्शिण टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
95	U74900KA2011PTC058320	सिरी लक्ष्मी प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
96	U32308KA2010PTC052408	व्क्षूम डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
97	U74999KA2016PTC096546	मेट्रिकस्वीकी प्राइवेट लिमिटेड
98	U72900KA2016PTC092303	मीटुरैट प्राइवेट लिमिटेड
99	U17221KA2009PTC050252	दोदबलापुर इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड
100	U72200KA2014PTC074623	फायरकेट टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
101	U72900KA2015PTC083513	हॉकनबीड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
102	U45205KA2016PTC087110	टीमासाप प्रॉजेक्ट मॅनेज्मेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
103	U74900KA2014OPC075147	भवानी ई-सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
104	U74999KA2016PTC096879	उनिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
105	U70102KA2007PTC043938	लिमिटलेस प्रॉजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
106	U72200KA2013PTC068039	ओनपॅवर क्लाउड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
107	U51109KA2013PTC072261	सिस्ट्रा वेस्ट मॅनेज्मेंट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
108	U14101KA2000PLC027947	रॉक्लाइन्स नेचर स्टोर लिमिटेड
109	U52100KA2012PTC065979	सी2बी ज्युवेल्स रिटैल प्राइवेट लिमिटेड
110	U74900KA2016PTC087062	रोल्लिंगरील स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड
111	U85120KA2010PTC053792	प्राणामा प्लेक्स्युस प्राइवेट लिमिटेड
112	U72900KA1988PTC009476	बृंदावन सॉफ्टलंड प्राइवेट लिमिटेड
113	U55101KA1999PTC025174	जैनब फ़ातिमा फास्ट फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U72200KA2016OPC086056	ब्रिडालेइज सोल्युशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
115	U65992KA2006PTC039138	श्री आस्टलक्ष्मि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U72200KA2013PTC071312	लोटस सेमिकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड
117	U67100KA2017PTC108469	टेसजॉर्प ए&बी फाइनान्शियल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
118	U67190KA2006PTC040429	पीसीआर कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
119	U74999KA2016PTC092845	मॅगनेट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U74900KA2015PTC084496	डि फ़ाब्सटोरी प्राइवेट लिमिटेड
121	U74900KA2015PTC080496	मुड़ट्री ऑनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
122	U74900KA2016OPC086926	इंटेग्रेटेड बीज़कॉरप (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
123	U45202KA2014PTC076263	साई सिरी वेंचर्स डि-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
124	U64200KA2014PTC074835	एनरगीन दास नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U72200KA2011PTC056660	हाव्या टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
126	U80904KA2009PTC049580	सक्सेसनेक्स्ट लाइफ अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
127	U70101KA2005PTC037106	प्राकृति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
128	U72900KA2016PTC092519	मातृ आईटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
129	U72200KA2013PTC072613	भव्यम इन्फोसिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड
130	U45400KA2013PTC070226	4वेस्कोयर डेवलेपर्स आंड कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
131	U74900KA2015PTC081432	एस वी फोरटुनेर्स इंफ्रा प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U74999KA2016PTC097122	ईटीइजेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
133	U72200KA2013FTC069482	इंटालीओ सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
134	U72200KA2014PTC074793	फिल्गुड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
135	U24119KA1986PTC008008	ई.पी. लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
136	U74999KA2016OPC094899	स्पासिया इंटेरिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
137	U72400KA2014PTC074578	ईलिवेनिटी सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
138	U18101KA2003PTC032845	एन.नरसम्पा टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
139	U63090KA2010PTC052212	मिलिनीयम पार्किंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
140	U72200KA2012PTC066285	एटशा सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
141	U74999KA2016PTC092516	नाम अलूमिनियम एक्सट्रूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U22130KA2013PTC070854	मोबसरकल टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
143	U72200KA2006PTC040577	ओपन कंट्री टेक्नॉलाजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
144	U51109KA2014PTC077461	स्पूती एबॅल्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U72900KA2009PTC050122	बोनिडिया टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
146	U21023KA2015PTC078390	विठोभा कारटन्स प्राइवेट लिमिटेड
147	U72200KA2015PTC083622	ज़ोक्केट सॉफ्टवेयर लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U72200KA2008PTC047402	3जी लॉब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
149	U60200KA2013PTC071571	डकोट्रान्स सदरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
150	U60231KA2008PTC047730	कार्तिकेयास लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
151	U14200KA2008PTC048144	संदूर मिनरल्स & लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U72200KA2010PTC055248	उल्टिसोल टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
153	U24232KA2014PTC076002	मेडकोर फ़ार्मा प्राइवेट लिमिटेड
154	U92412KA2010PTC054481	गॉल्ट एंटरटैनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
155	U99999KA1994PTC016074	विनायका स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
156	U72900KA2007PTC042322	विल्यम्स चीस्मान सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
157	U74900KA2015PTC084938	पनोमिक्स डाइयग्नॉस्टिक्स आंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
158	U14292KA2012PTC066473	श्री सलासार ग्रानिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
159	U17222KA2010PTC055958	स्कार्लेट क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
160	U74999KA2016PTC093040	ई-मेडिक हेल्थकेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
161	U80301KA2012FTC064572	जीकेटीआइ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
162	U29248KA2016PTC086304	अवागमा टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
163	U72200KA2013PTC072478	निसाकी टेक्नालजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
164	U72900KA2016PTC097875	ब्रिजबिज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
165	U72900KA2017PTC100905	टैचन सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
166	U26949KA2007PTC043594	जेआर नॉनओवेंस आंड वॉटरप्रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड
167	U29244KA2014PTC076315	केस वेर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
168	U74900KA2015PTC084927	क्लाउड वॉटर प्युरिफिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
169	U30007KA1994PTC015669	सीपीडि कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
170	U74900KA2014PTC077875	आका बिजनेस प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
171	U01407KA2015PTC079788	प्रत्याग्रा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
172	U29248KA2013PTC071236	सेर्वोमक्ष एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
173	U72200KA2012PTC062176	आइसोमेट्रिक टेक्नालजी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
174	U15122KA2015PTC083312	फूडस्टर किट्चन प्राइवेट लिमिटेड
175	U74900KA2015PTC080879	आक्सिम मेप इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
176	U80211KA2001PTC029076	जीनी किड्स लर्निंग रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
177	U01130KA2011PTC060370	सोसियेट अग्रो कर्मांडिटीस प्राइवेट लिमिटेड
178	U72200KA2015PTC082601	सेलीब्रेट मूकॉमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
179	U45200KA2007PTC044157	मातृश्री प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
180	U85120KA2008PTC045166	गार्डियन मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
181	U74110KA2007PTC043443	सीएन प्रोफेशनल & लीगल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
182	U27101KA2012PTC064261	आरिगो स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
183	U74999KA2017PTC106685	सीटो टेक्नोक्रेट्स बिब्रेजेस प्राइवेट लिमिटेड
184	U73100KA2003PTC033091	बयोवेल लाइफ साइन्सस प्राइवेट लिमिटेड
185	U74900KA2015PTC078087	आइड्रोपण वॉटर टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
186	U45205KA2015PTC080133	कोरात इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
187	U72200KA2012PTC065430	अस्टेरिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
188	U17214KA2014OPC075562	बिजुआल्यटिक्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
189	U80301KA2012PTC066272	जीनियस ब्रेन्स एडुकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
190	U74999KA2017OPC106470	डॉसीटयुड फिटनेस सर्विसेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
191	U45205KA2014PTC075549	बीवीएल डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
192	U45205KA2014PTC075565	बीवीएल विलास प्राइवेट लिमिटेड
193	U72200KA2012PTC065806	नेक्स्ट टैलेंट ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U15209KA2017PTC101460	मंगलोर अग्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U28999KA2017PTC108247	मंगलोर मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U35113KA2014PTC077113	वेलोस ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
197	U74999KA2016PTC093515	एका जैसेट प्राइवेट लिमिटेड
198	U72200KA2004PTC034473	एडिपीएस सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
199	U72300KA2010PTC054456	बीइस्टॉक टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
200	U72200KA2011PTC060239	3एस इनोवेशन आंड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
201	U70101KA1999PTC024864	डूऑफलेक्ष प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
202	U22190KA2012PTC065620	ताल्लूस् इंफ्रेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
203	U74999KA2016PTC097910	प्रिमेरो टीचर-इंटरफेस प्राइवेट लिमिटेड
204	U72200KA2016PTC095276	एजीआर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
205	U74999KA2017PTC103589	नितर्स टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
206	U74900KA2014FTC076332	ब्रिजपार्क टेक्नॉलाजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
207	U24100KA2010PTC054068	गीटोन ईको सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
208	U40104KA2014PTC077583	जस्ट पॅवर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
209	U74900KA2009FTC051447	वियांज़ा सर्वोसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
210	U72300KA2014PTC074608	लूक्कनोव टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
211	U74900KA2015PTC082638	केना फुड आंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
212	U72200KA2015PTC082949	प्रोआंस टेक्नालजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
213	U72900KA2010PTC055925	प्रोबैचमार्क आउटस्सिंग सोल्युशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
214	U45201KA1994PTC015891	नवरस हेवी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
215	U72200KA2015PTC081617	लेबू सॉफ्टवेक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
216	U74999KA2010PTC052972	गॅस्ट्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
217	U74999KA2016PTC094569	अलोकैट सोल्युशन्स आंड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
218	U52590KA2015OPC078425	गलायेरा ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
219	U05190KA2005PTC035630	अक्षया लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U18101KA2015OPC080834	स्थवी डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
221	U24232KA2015PTC078697	ग्लोबयोसेज़ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
222	U74140KA2015PTC079716	नाश कैपिटल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
223	U51909KA1995PTC018794	माक्वेल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
224	U52590KA2015PTC078902	सिरका इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
225	U45200KA2013PTC069336	वीडिबी बेल्लारी रिंग रोड फेज़ 1 प्राइवेट लिमिटेड
226	U45203KA2013PTC069294	वीडिबी बेल्लारी रिंग रोड फेज़ 2 प्राइवेट लिमिटेड
227	U13201KA2014PTC077769	अंजनाद्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
228	U72200KA2011PTC060582	जाग्रत टेक्निकल सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
229	U72200KA2013PTC071331	अरेरा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
230	U80301KA2012PTC064804	अल्फा अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
231	U18101KA2013PTC069313	कहूट्स गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
232	U65999KA2009PTC050488	एनपीओ फाइनान्सियल सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
233	U60200KA2014PTC074784	नीडो रिलोकेशन सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
234	U51909KA2016PTC094537	ही ह्यूस प्राइवेट लिमिटेड
235	U70100KA2015PTC080889	ईवी लैंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
236	U40106KA2016PTC098823	ग्रीनफीच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
237	U72200KA2012PTC062676	स्टंप कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
238	U51900KA2013PTC069774	यपशा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
239	U40109KA2009PTC050997	मिलिनीयम सिनर्जी (कर्नाटका) प्राइवेट लिमिटेड
240	U80300KA2014PTC073834	विश एजुकेशनल प्रॉडक्ट्स & सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
241	U51909KA2008PTC045232	सिलिकान हाइव एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U52100KA2010PTC054862	हाइपेरियन ग्रीन टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
243	U72200KA2012PTC064687	जिंगचाक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
244	U01711KA2005PTC036915	बोस्सा नोवा टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U45400KA2014PTC076526	संकेश्वरा असेट्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U74900KA2015PTC081602	डिजिलियन मॅनेजमेंट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
247	U74999KA2016PTC097770	वीबरांडो डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
248	U74900KA2016PTC085243	ऑर्ब8 बिज़नेस इंक्यूबेशन प्राइवेट लिमिटेड
249	U29112KA2001PTC029713	एयरक्रॉफ्ट ब्रेक पैड्स प्राइवेट लिमिटेड
250	U74900KA2015OPC083883	स्वॉशकलर वेंचर्स इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
251	U72200KA2010PTC053199	अस्तु इन्फर्मेसन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
252	U74900KA2014PTC074677	सिग्नेट सेक्यूरिटी सोल्युशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
253	U72501KA2016PTC097630	बबबल टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
254	U63030KA2016PLC094333	अक्वाट्रान्स शिपिंग लिमिटेड
255	U65993KA1996PTC021034	कॅलिफॉर्निया इनवेस्टमेंट आंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
256	U74999KA2016PTC098584	स्प्रिंगलैंड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
257	U72900KA2011PTC061117	कीराज़ टेक्नालजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
258	U15490KA2010PTC054199	डिलाइटो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
259	U74999KA2009PTC050254	ट्राणसवेलट लैंग्वेज सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
260	U74900KA2014PTC075304	किंग्स & प्रिन्स ट्रेनिंग अकॅडमी प्राइवेट लिमिटेड
261	U72200KA2011FTC059293	टिएफओ मॅनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
262	U92400KA2015PTC083326	एक्सआरटी फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड
263	U74900KA2015PTC084297	सुम्विद ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
264	U51909KA2013PTC070582	बयो-इंडिया फार्मा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
265	U01810KA2008PLC047596	एल्टेको अप्परेल्स लिमिटेड
266	U74140KA2004PTC033697	इंस्टोर डिज़ाइन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
267	U74994KA2006PTC039717	स्पेस फिट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
268	U45201KA2008PTC046657	ईमान एस्टेट्स & प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
269	U65993KA2008PTC048647	अनंता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
270	U45209KA2015PTC079562	रिवेरा कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
271	U74900KA2016PTC085201	ओम स्वास्तोभावा इन्स्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
272	U72901KA2016PTC094997	सिनियो टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
273	U85110KA2015PTC079928	प्लक्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
274	U74900KA2013PTC067696	कनीन बिज़नेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
275	U72200KA2015PTC084099	कामियोमेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
276	U45205KA2013PTC072374	यूनिवा बिल्डर्स & डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
277	U72900KA2011PTC059542	लुन्सिस टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
278	U31401KA2016PTC086651	न्यूवो एलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U15209KA2011PTC060240	करी स्प्रिंग फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
280	U74200KA2008PTC047986	शॉक कॉर्टेक्ट्स & इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
281	U70100KA2015PTC081419	एस के पी सिविल टेक प्राइवेट लिमिटेड
282	U67110KA2013PTC068873	एल जी & एस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
283	U74994KA2006PTC040105	स्टाइल फक्स (बंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड
284	U74900KA2015PTC079813	ऑफिसपज्जियो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
285	U72200KA2009PTC050168	अल्थिया सिस्टम्स & सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
286	U74900KA2014PTC075828	4टैप्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
287	U72900KA2016OPC096820	डेटामेट्रीक्स सिस्टम्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
288	U45200KA2011PTC060765	प्रगति इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
289	U74999KA2016PTC095607	निष्ठा होटल्स आंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
290	U74900KA2015PTC078795	ज़ोन रीटैल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
291	U45203KA2005PTC036107	नीतेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
292	U85191KA2015PTC078916	वनका हेल्थ केयर & रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
293	U85110KA2007PTC044021	इन्स्टिट्यूट डि'एक्सपर्टीस क्लिनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
294	U72200KA2014PTC077400	जिडियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
295	U74900KA2014PTC077095	सकोयरबूज्ज अप्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U63090KA2012PTC067212	लेस वायेजस ट्रैवल एक्सपीरियन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
297	U24100KA2013PTC070297	ब्लू वेल बयोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
298	U74900KA2013PTC071798	शॉपट्री ऑनलाइन रीटाइल प्राइवेट लिमिटेड
299	U74900KA2013PTC069898	एनपीजी अनलिटिकल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
300	U72200KA2007PTC042656	प्लक्सा इनोवेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
301	U70109KA2016PTC096006	ताओ वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
302	U74210KA1999PTC042119	अंकित फॉजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
303	U32208KA1994PTC016078	प्रोलिन पॅवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
304	U72200KA2008PTC048115	ई-मार्गा टेक्नालजी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
305	U72200KA2010PTC052357	एंटेल्कि टेक्नालजी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U74900KA2013PTC071316	कराशिल्प क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
307	U72300KA2012PTC065927	प्रशास्ती टेकनो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
308	U92140KA2014PTC076484	एपिकयूरस इवेंट प्राइवेट लिमिटेड
309	U72900KA2016PTC098404	ग्राफीटि एक्सवोइडेंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
310	U14200KA2014PTC076920	सीधिविनायक एयर्थजियो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
311	U72200KA2015PTC082941	वेबिलीज़ सॉफ्टवेयर डेवलेपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
312	U74999KA2016PTC095154	गलियम रीटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
313	U55102KA1990PTC011177	सुमिद्विया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
314	U73100KA2010PTC054379	अबक्ष फार्म सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
315	U80903KA2009PTC049506	एसस्कोयर ट्रेनिंग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
316	U74140KA2002PTC030130	फ्लोरैडसन इंडिया कॉप्लाइयेन्स प्राइवेट लिमिटेड
317	U72200KA2013PTC071641	उल्टे टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
318	U29299KA2005PTC036047	टीबीएक्स रिसोर्सस आंड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
319	U85110KA1997PTC021894	बी.एस.एम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
320	U72200KA2013PTC072183	इंयाफेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
321	U52590KA2015PTC082211	फॉक्स डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
322	U72900KA2016PTC094459	डॉमिनेन्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
323	U72900KA2014PTC074566	इंट्रामार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
324	U36912KA2010PTC053818	इनोवेटिव थॉट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
325	U36990KA2013PTC072323	हैटेक आनोडस प्राइवेट लिमिटेड
326	U72200KA2013PTC069388	भावितवा डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
327	U52390KA2014PTC073336	प्रीडस्को रीटाइल प्राइवेट लिमिटेड
328	U22120KA2009PTC051889	एक्स8मेंट मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
329	U52100KA2016PTC086053	दुफपल फैशन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
330	U74900KA2015PTC084606	कंपेयर लॉब प्राइवेट लिमिटेड
331	U74900KA2015PTC078174	शे टेक्निकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
332	U63040KA2015PTC083462	शस्फ लाजिस्टिक्स अप्टिमिज़ेशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
333	U72900KA2016PTC092372	ज़न्मी डिजिटल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
334	U93090KA2013PTC071692	अरियन लॉ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
335	U72900KA2015PTC084732	फ्लाइयिंग वील एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
336	U72200KA2014PTC076963	अंजना टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
337	U72900KA2004PTC035062	अमट्रा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
338	U18105KA2016PTC093473	ब्लूमार्क फैशन प्राइवेट लिमिटेड
339	U18109KA2016PTC093529	इवॉलवी अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
340	U72200KA2014PTC075670	कैम्पमी सिस्टम्स आंड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
341	U45201KA2007PTC043321	रोसमॉट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
342	U72900KA2003PTC031775	टार्टन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
343	U72200KA2013PTC070867	तीक्षर कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
344	U67190KA2008PTC045259	राजिवम् फाइनान्सियल कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
345	U74300KA2008PTC047490	अडजुग मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
346	U85110KA2004PTC034720	स्वास्तिक जनरल आंड हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
347	U72200KA2015OPC081084	डिनेबस्कै मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
348	U74300KA1993PTC014502	फेचलूटी ट्रेडिंग आंड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
349	U52300KA2011PTC060421	पीक-ए-वॅगन.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
350	U72200KA2011PTC060553	प्रोआप्सिस् सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
351	U55101KA2011PTC060364	नांधना बजेट होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
352	U55101KA2012PTC061971	नांधना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
353	U55101KA2007PTC042464	श्री नंदिनी पॅलेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
354	U65910KA1982PTC004999	प्रिमियर सॉफ्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
355	U74900KA2014PTC077535	हॉक आइ सीसीटिवी प्राइवेट लिमिटेड
356	U85110KA2000PTC028217	हॉकी इन्स्टिट्यूट फॉर बेटर विषन प्राइवेट लिमिटेड
357	U74999KA2017PTC105435	पेप्पा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
358	U72200KA2012PTC066954	अदितिआ टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
359	U72200KA2013PTC071630	आईसीडिआ टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
360	U22219KA2013PTC069699	जग्गलर & कीपर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
361	U73100KA2012PTC066906	इनोवेटिव सुन टेक प्राइवेट लिमिटेड
362	U72200KA2005PTC037731	इंसाइट टेक्नालजी पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
363	U74900KA2015PTC078534	परिस्कक टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
364	U51109KA2014PTC076540	वर्कप्लेस फर्निचर प्राइवेट लिमिटेड
365	U74920KA2012PTC065819	कन्नेक्श टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
366	U36999KA2011PTC059792	अदिति हारनेस आंड अलाइड आक्सेसरीस प्राइवेट लिमिटेड
367	U55101KA2012PTC064396	सोस्सेगो हॉस्पिटालिटी आंड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
368	U80301KA2013PTC072304	स्किलटिप्पै लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
369	U20101KA1976PTC003020	इंडियन वुड्स आंड मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
370	U72200KA2014OPC074843	फेबीटेक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
371	U21000KA2012PTC065224	प्रिज़म पेपर प्राइवेट लिमिटेड
372	U72900KA2005PTC036363	स्किलप्रॉफिलर अनलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
373	U72200KA2011PTC058436	शेस्ट्रा आइटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
374	U31100KA2015PTC082529	ईसीराइड टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
375	U74999KA2016PTC094289	केआरएल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
376	U00093KA1993PTC015040	मैसूर मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
377	U74140KA2003PTC032021	सिविल सोसाइटी इन्फर्मेशन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
378	U72200KA2002PTC031106	सॉफ्टप्रो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
379	U52590KA2012PTC061964	त्रिका रीटाइल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
380	U85190KA2013PTC068317	सुनेत्रा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
381	U72200KA2011PTC057391	अटट्रीबो टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
382	U72200KA2008PTC047790	मिडिलवेयर कन्सल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
383	U34106KA2007PTC041607	अशोक खेनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
384	U52339KA2007PTC044416	एयरोबेस एक्वि प्राइवेट लिमिटेड
385	U74999KA2016PTC097150	ओमीकॉन टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
386	U85100KA2008PTC045872	साई रंगा हेल्थकेयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
387	U74900KA2014PTC077257	गेटबेटर सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
388	U52590KA2015PTC078904	वूडशरिक रीटाइल प्राइवेट लिमिटेड
389	U72400KA2011PTC056882	रेवू क्लाउड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
390	U92190KA2015PTC079816	स्पार्स एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
391	U85110KA1997PTC021679	6एस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
392	U24239KA2008PTC046320	धाम ही फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
393	U74900KA2015PTC084894	ल्यफोसिस बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
394	U51909KA1995PTC018300	अस्वती प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
395	U72900KA2016PTC093846	सेटिरी टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
396	U72200KA2014PTC073937	इयंत्रम सोफ्ट्सिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड
397	U74999KA2017PTC098973	हस्क ग्रीन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
398	U72300KA2010PTC054334	आइमनेज़ टेक्नालजी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
399	U93000KA2012PTC066944	डिज़लिवुड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
400	U70101KA2009PTC050882	वायलेट अक्टोबर इंजिनियर्स आंड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
401	U72200KA2015PTC081988	विकान इन्फो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
402	U51909KA2015PTC083503	एड्वॉर्डियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
403	U45205KA2013PTC072415	व्हिड्योलाइन्स डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
404	U72200KA2013PTC071415	एथनोटेक आइटी आंड हार्डवेर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
405	U85100KA2010PTC054750	मेरिगोल्ड मेडिकल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
406	U74900KA2015PTC082586	प्रोटेवस लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
407	U35301KA2012PTC066719	यंत्रा एमआरओ आंड एवियेशन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
408	U74999KA2017OPC102585	जे&के ट्रिप मेकर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
409	U70200KA2016OPC094828	जूस्टकॅमर्सियल.इन प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
410	U80301KA2010PTC052448	कौटिल्या विद्यालया प्राइवेट लिमिटेड
411	U29307KA2009PTC050551	ग्लोबल मेट्रल एंटरप्राइज़स प्राइवेट लिमिटेड
412	U74999KA2017PTC101963	सेचो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
413	U74140KA2015PTC080785	बीकॅपिटलफैनान्शियल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
414	U74900KA2015PTC081379	बीकॅपिटल्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
415	U13205KA2015OPC078461	ट्रपेज़ा बिज़नेस कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
416	U74900KA2008PLC045740	वॉलुंटास फुड पार्क्स (इंडिया) लिमिटेड
417	U13100KA1981PTC004509	विशाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
418	U72400KA2008PTC048086	वर्टिकल लर्निंग कन्सल्टेंट्स & सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
419	U45202KA1993PTC014015	गुडागुंटी प्रॉजेक्ट्स इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
420	U85110KA2000PLC027819	आक्रोपेटल अनीमीडीया लिमिटेड
421	U74999KA2013PTC068558	कायका मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
422	U55101KA2012PTC067268	आरिअना एफएनबी प्राइवेट लिमिटेड
423	U45203KA2015PLC082367	ग्रास्सूटीन इन्फ्रा एनर्जी लिमिटेड
424	U11100KA2012PTC063712	ग्रीन पॉलिमर एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड
425	U74900KA2011PTC057694	स्पॉन्सरशिप मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
426	U85110KA2013PTC070019	लुमिटिक्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
427	U51399KA2003PTC033046	नवजेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
428	U72900KA2017PTC102817	कर्टिफ़े लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
429	U51505KA2003PTC032006	सिराट्रान ट्रेड आंड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
430	U74999KA2017PTC099360	एवलॉजिया प्राइवेट लिमिटेड



क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
431	U72300KA2004PTC033628	टेलेंटसर्व सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
432	U74999KA2016PTC098697	सीक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
433	U92490KA1994PTC016204	अन्लीला कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
434	U29308KA2013PTC072730	मकरोस इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
435	U70102KA2007PTC043965	निविस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
436	U80302KA2000PTC028291	इंडियन स्कूल ऑफ अप्लाइड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
437	U01403KA2015PTC083889	आइसीएफ अग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
438	U70109KA2007PTC041766	फेतरलाइट डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
439	U36103KA2011PTC058733	मर्म फेतरलाइट रीटाइल फिकचस्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
440	U72400KA2000PTC028049	संव टेक्नॉलाजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
441	U72200KA2000PTC026787	टारगेट बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड
442	U74994KA2005PTC036155	वेल्लाल इंटरआर्क प्राइवेट लिमिटेड
443	U74900KA2014PTC075579	डीलयुवर्सैल्फ इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
444	U74900KA2015PTC084949	क्लीनकार्ट सप्लाइस प्राइवेट लिमिटेड
445	U72200KA2007PTC042672	टेलीबेस कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
446	U85110KA2005PTC037134	कडम्बी सुपरगाम्मा काँसरकेयर प्राइवेट लिमिटेड
447	U72200KA2012PTC065850	राइल चीज़ प्राइवेट लिमिटेड
448	U72200KA2015PTC082081	ऊर्जीत आइटी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
449	U72900KA2017OPC100892	सियोन टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
450	U29120KA2007PTC043530	रिमोट कंट्रोल मैक्रोफ़िनिश आक्ट्यूयटर्स प्राइवेट लिमिटेड
451	U55101KA2010PTC055502	विन्फ़ीनिटी हॉस्पिटालिटी सर्वोसेस प्राइवेट लिमिटेड
452	U01549KA1984PTC006438	आस फुड प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
453	U72200KA2015PTC078993	पीपलब्रिडज टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
454	U93090KA2014OPC076602	ईज़डस्कोयर्स सिग्नेचर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
455	U85110KA1991PLC012654	चेम्बरा ऑर्चर्ड प्रोड्यूस लिमिटेड
456	U74900KA2014OPC076780	ब्रिकॉल कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
457	U92410KA2015PTC080491	आरएसपी स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
458	U74900KA2016PTC086922	स्प्रिज़ फाइन फुड प्राइवेट लिमिटेड
459	U74900KA2015PTC079577	पुरपलपात सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
460	U15400KA2010PTC054233	पेस अग्रीटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
461	U01300KA2010PTC054249	पेस ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
462	U72300KA2011PTC058609	प्रेंगमॅटिक साइबर्नेटिक सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
463	U74900KA2010PTC054681	ज्ञान मंत्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
464	U32107KA2008PTC047346	साइबर्नेटिक रिसर्च लॉब्स प्राइवेट लिमिटेड
465	U26990KA2013PTC068998	करिज़्मा टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
466	U72900KA2016PTC095260	हेल्लोटाप्स इन्फर्मेशन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
467	U31909KA1993PTC014235	देवी मूविंग स्पेर्स प्राइवेट लिमिटेड
468	U31907KA2007PTC043305	प्रोटेक्ट भारत सेक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
469	U72200KA2006PTC038503	मेट्रिका सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी सिन	कम्पनी का नाम
470	U72200KA2016PTC085095	बीजर टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
471	U65100KA2008PTC045405	वीवियेदा फाइनान्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
472	U74900KA2013PTC069235	टीपी&एस मॅनेज्मेंट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
473	U45205KA2013PTC072041	मा सेफ रेसिडेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
474	U31909KA2007PTC043671	मंथन सेमिकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
475	U72200KA2007PTC044586	टीआरसी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
476	U45202KA2013PTC068198	कॅटलिस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
477	U29248KA2015PTC082115	प्रो-सर्व इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
478	U72900KA2009PTC051069	मेड तारा सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
479	U45202KA2009PTC049105	एमएनजी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
480	U74900KA2015PTC078535	नुकलियो हँडीमन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
481	U72200KA2014PTC073974	प्रोसेस्कॉम टेक्नॉलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
482	U25200KA2013PTC072367	मैनी प्लासटिक्स आंड औटोकोम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
483	U40109KA2012PTC064458	आइलेक्स पॅवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
484	U74900KA2008PTC045803	क्रोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
485	U74999KA2016PTC092592	अनितरा कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
486	U72200KA2013PTC071751	जोमोसॉफ्ट कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
487	U55101KA2016PTC093572	कृष्णा पॅरडाइस प्राइवेट लिमिटेड
488	U45205KA2011PTC059963	एमिरेट्स इंडिया प्रिंकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
489	U74900KA2015PTC082510	ग्रीणस्पेस फेसिलिटीस मॅनेज्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
490	U72200KA2016PTC085342	तिंक्स्केल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

सी. वी. सजीवन  
कम्पनी पंजीयक  
कर्नाटक

पुणे-411044, दिनांक 14 जनवरी 2019

सं. आरओसीपी/नियम 37(3)/एसटीए/2018/3174—एल. एल. पी. नियम 2009 के नियम क्र. 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल. एल. पी. के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल. एल. पी. विघटित हो गई है।

क्र.सं.	एल.एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
1.	AAH-0894	शुद्ध देसी फार्म एलएलपी
2.	AAF-4095	क्लोन मैनुफैक्चरर एलएलपी
3.	AAB-3039	स्वप्नपूर्ति इंटरप्राइजेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
4.	AAG-1866	टेक4ट्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स एलएलपी
5.	AAG-7975	अम्बिका लैंडमार्क्स एलएलपी
6.	AAF-8788	अम्बिका लाइफस्पेसेस एलएलपी
7.	AAG-4234	वेवा फैशन एलएलपी
8.	AAJ-6218	योगमुद्रा आयसोर्स एलएलपी

क्र.सं.	एल.एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
9.	AAH-8197	बिज़नेस कंसल्टिंग एलएलपी
10.	AAJ-0136	ट्रवफिन सर्विसेस एलएलपी
11.	AAF-1209	लुमिनसैंट लाइफस्टाइल्स एलएलपी
12.	AAF-1501	मधुपुष्प फूड्स एलएलपी
13.	AAJ-6599	क्रिएटिव्हज लॉन्स एलएलपी
14.	AAB-3780	गा ग्रीन पॉवर एलएलपी
15.	AAA-0409	आयऑरो टेक्नोलॉजीस एलएलपी
16.	AAB-1476	अनंतछाया होटेलियर्स एंड ट्रैवेलर्स एलएलपी
17.	AAF-7110	एकलक्ष्य आर एंड डी अकादमी पुणे एलएलपी
18.	AAB-6491	हैप इंफोटेक एलएलपी
19.	AAG-1687	पेपरमिट फूड्स एंड बेवरेजेस एलएलपी
20.	AAH-8977	युनिकेयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एलएलपी
21.	AAD-6079	मार्का विज्युअल कम्युनिकेशन्स एलएलपी
22.	AAG-5597	एविएस एडवांस्ड वर्सटाइल सोल्यूशन्स एलएलपी
23.	AAF-1032	बन्नी सुपर मार्ट एलएलपी
24.	AAG-4488	चंदन मल्टी प्युअर सिस्टम्स एलएलपी
25.	AAD-1260	ब्लैकआउलज फूड एक्सप्रेस एलएलपी
26.	AAC-3384	सिग्नेट हाउसिंग एलएलपी
27.	AAE-1038	एस-क्यूब सिक्यूरिटी सर्विसेस एलएलपी
28.	AAB-0674	केडेन्स बिज़नेस कंसल्टिंग एलएलपी
29.	AAJ-6603	डॉक्टर्स डेअरी एलएलपी
30.	AAJ-9462	रीवा आर्ट एंड क्राफ्ट्स एलएलपी
31.	AAB-2509	कॉस्मिक पांडा प्रोडक्शन्स एलएलपी
32.	AAH-1359	एशियन इनोवेटिव वेंचर्स एलएलपी
33.	AAJ-5012	आम्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एलएलपी
34.	AAC-9342	रेनूटेक ग्रीन इंजीनियरिंग एलएलपी
35.	AAJ-9976	जीएस एग्रो सेल्स एंड सर्विसेस एलएलपी
36.	AAB-7353	आदिश्री डेवेलपर्स एलएलपी
37.	AAC-8631	गंगा ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज एलएलपी
38.	AAE-7826	सिद्धिविनायक परफेक्ट इंफ्रा क्रिएशन्स एलएलपी
39.	AAJ-7768	मार्क बिज़नेस एडवाइजरी एलएलपी
40.	AAA-7316	टैंटम आईटी सर्विसेस एलएलपी
41.	AAE-5346	फ्रेश टू इट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
42.	AAE-5560	स्वाध्याय टेक्नोलॉजीस एलएलपी

क्र.सं.	एल.एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
43.	AAA-5302	टेस्सेल इनोवेशन्स एलएलपी
44.	AAG-2829	गो-ग्रीन कोल्ड स्टोरेज एलएलपी
45.	AAJ-0651	जेबी क्रॉप सायन्स एलएलपी
46.	AAI-6638	पर्पल ओनिक्स एक्सपोर्ट्स एलएलपी
47.	AAB-2929	आर्क-मैस्ट्रो हाउसिंग एलएलपी
48.	AAB-0966	अपार रियल इस्टेट एडवाइजर्स एलएलपी
49.	AAB-5701	रेडिटिज एनर्जी एलएलपी
50.	AAC-5176	एसएनव्ही ओवरसीज एक्सिम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
51.	AAD-0506	हरिनारायण हेल्थकेयर एंड इन्फो एलएलपी
52.	AAE-9235	साईनटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
53.	AAF-9556	रेडिसीस टेक्नोलॉजीस एलएलपी
54.	AAJ-6296	डेवलपमेंट प्लानर्स एंड वलुएस एलएलपी
55.	AAG-0782	ट्रिप2लर्न टूरिजम एलएलपी
56.	AAB-7368	इसोटोरिक लाइफ सोल्यूशन्स एलएलपी
57.	AAH-4399	वोक्शुस इंटरप्राइजेज एलएलपी
58.	AAC-8911	यशदा वास्तु निर्मिती एलएलपी
59.	AAJ-4115	अधिरा अकैडमिक वेन्चर्स एलएलपी
60.	AAF-8450	अर्ली बर्ड्स चाइल्डकैअर सर्विसेस एलएलपी
61.	AAJ-4817	क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेस एलएलपी
62.	AAF-3704	फूडईट्स कुइसिने एलएलपी
63.	AAF-8142	एडेलफिनो टेक्नोलॉजीस एलएलपी
64.	AAI-8471	प्लानरइवेंट मैनेजमेंट एलएलपी
65.	AAH-5661	अंतर्नाद क्रिएटिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स एलएलपी
66.	AAD-5434	श्री फूड फरमाईश एलएलपी
67.	AAH-1529	अभंग प्लेसमेंट एंड एचआर सर्विसेस एलएलपी
68.	AAC-0213	बिज़कार्ट बिज़नेस सोल्यूशन्स एलएलपी
69.	AAG-6136	स्पर्स इंटरनैशनल एलएलपी
70.	AAF-3324	एसएपी इंटीरियर्स एलएलपी
71.	AAF-6573	ग्रनेडिएर आईटी सर्विसेस एलएलपी
72.	AAE-9458	एलिक्सिर इन्टरनेट एलएलपी
73.	AAJ-8589	पाटील खत्री एंड कं एलएलपी
74.	AAG-7773	कैलाशनाथ इनोवेटिव सिस्टम्स एलएलपी
75.	AAG-4482	विद्यासंकुल आईटी सोल्यूशन्स एंड कंसल्टेंट्स एलएलपी
76.	AAH-2156	स्वात कार केयर सर्विसेस एलएलपी

क्र.सं.	एल.एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
77.	AAF-1921	मेकवर्ल्ड डिजाईन सोल्यूशन्स एलएलपी
78.	AAB-8780	गोटवेलसूनर हेल्थकेयर सर्विसेस एलएलपी
79.	AAH-6005	वर्शिप रिसॉल्यूशन सर्विसेस एलएलपी
80.	AAD-1222	ऑटम लैंडमार्क्स एलएलपी
81.	AAF-6563	इन्फीडिगी टेक्नोलॉजीज एलएलपी
82.	AAH-5005	बिझटीम टेक एलएलपी
83.	AAH-3565	इन्द्रदीप बिल्डकॉन एलएलपी
84.	AAJ-5550	लांशिपटर कंसल्टेंसी सर्विसेस एलएलपी
85.	AAI-7344	सबेर एनर्जी सिस्टम्स एलएलपी
86.	AAA-8983	अचलकर तातूसकर प्रॉपर्टीज एलएलपी
87.	AAH-8611	3 एस स्पोर्ट्स एलएलपी
88.	AAF-5439	आरंभ टूलिंग्स एलएलपी
89.	AAB-5486	ईस्ट वेस्ट कार्टेल (इडब्ल्यूसी) टेक्नोलॉजीज एलएलपी
90.	AAJ-4116	स्केल सन एंड सैंड एलएलपी

पी. एस. खाडे  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
पुणे

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-03, the 11th January 2019

No. E.38013/01/NOTI./GOs/2019/PERS.I/38—The President is pleased to appoint the following Section Officer on regular promotion to the rank of Sr.Administrative Officer in the pay Matrix Level 11, Rs. 67,700—2,08,700/- in CISF with effect from the date mentioned against him:—

S.N.	Name of Officer(Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Sr.Administrative Officer on regular basis
1.	KURIAKOSE ALIAS	Provisioning & Procurement Branch. FHQRs. New Delhi	02.01.2019/FN

2. The promotion is subject to further order which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the matter of implementation of reservation orders for SC/ST in promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

FORM NO: STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

{Pursuant to sub-section (5) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies} Rules, 2016

In the matter of the Companies Act, 2013 and of the following companies

Kanpur-208001, the 17th January 2019

No. Roc/STK-7/7151—This is with respect to this office Public Notice No.40 to 49 dated 29.10.2018, applications in form No. STK-2 filed by the respective companies and notice in STK-6 published on 14.11.2018. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 the following Companies has been struck off the Register of Companies from the date of publication and the said companies are dissolved.

S.No.	CIN No.	Company Name
1	U24233UP2015PTC075339	ALANA CHEMICALS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
2	U24233UP2015PTC075188	FULWARI BEAUTY PRIVATE LIMITED
3	U24233UP2015PTC075006	SUBALA LABS PRIVATE LIMITED
4	U24233UP2015PTC070830	SKYLAC LABORATORIES PRIVATE LIMITED
5	U24233UP2015PTC069368	ISHWAR CHEMICAL PRIVATE LIMITED
6	U24233UP2014PTC064578	BELAQ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
7	U24233UP2011PTC044526	GAMA MEDICHEM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
8	U24233UP2010PTC042884	DYNOSOUR MIRROR TOUCH PRIVATE LIMITED
9	U24231UP1991PTC012978	NORWES PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
10	U24215UP1988PTC009473	KANTI SHANTI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
11	U24139UP1985PTC007414	WINNERS RUBBER PRIVATE LIMITED
12	U24123UP2001PTC025829	KANHAIYA AGROTECH PRIVATE LIMITED
13	U24110UP2016PTC087042	SMDLIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
14	U22222UP2015PTC069527	APNA MEDIA FOLKS PRIVATE LIMITED
15	U22222UP2013PTC059351	NEWS FLASH MEDIA PRIVATE LIMITED
16	U22222UP2013PTC056442	DILIGENT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITE
17	U22222UP2012PTC053800	HASTAKSHEP MEDIA PRIVATE LIMITED
18	U22219UP2018PTC104230	MORNINGCITY MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
19	U22211UP2013PTC060661	SOURCEKEY INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
20	U21098UP2010PTC041667	PAPIER FIBERS PRIVATE LIMITED
21	U19120UP2011PTC043835	KANPUR TANNERIES ENVIRONMENTAL PROTECTION PRIVATE LIMITED
22	U18209UP2016PTC087132	NEWFLANGED TRENDS PRIVATE LIMITED
23	U17299UP2017PTC091512	TRIPATHIG CREATION PRIVATE LIMITED
24	U16003UP1997PTC022907	SINGHANIA SALES PRIVATE LIMITED
25	U15400UP2014PTC061676	SANGAM AGRIFOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
26	U15400UP2013PTC060813	KSHIR BEVERAGES PRIVATE LIMITED
27	U01110UP2016PTC084637	RATAN PRIYA ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
28	U01119UP2016PTC083322	RUDRAGREEN PRODUCER COMPANY LIMITED
29	U01120UP2016PTC082975	ABHAYEA ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
30	U01400UP2014PLC061817	INDRANI GREENTECH LIMITED
31	U01403UP2011PLC044895	RACY AGROTECH LIMITED
32	U01403UP2011PTC046528	NANDINI EXPORTS (I) PRIVATE LIMITED
33	U01403UP2011PTC047166	SUNEHRA KAL SUGANDHA PRODUCER COMPANY LIMITED
34	U01403UP2012PTC053534	VERSATILE AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
35	U10200UP2016PTC087201	SSRD MINING & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
36	U14220UP2016PTC075784	SHREE NARAYAN MINING PRIVATE LIMITED
37	U15122UP2012PTC050656	APUL FOODS PRIVATE LIMITED
38	U15122UP2013PTC057640	EMPIRE INDOFOODS PRIVATE LIMITED
39	U15122UP2015PTC072664	FLAVORAVENUE FOODS PRIVATE LIMITED
40	U15129UP2017PTC090714	VANDY FOOD PRIVATE LIMITED
41	U24233UP2016PTC075483	XENIUM BIOTECH PRIVATE LIMITED
42	U24296UP2016PTC082942	N V K PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
43	U25190UP2014PTC063906	SHEETALRAMA PLAST INDIA PRIVATE LIMITED
44	U26912UP1998PTC023535	SANKALP EXPORTS PRIVATE LIMITED
45	U26960UP1991PTC012883	PARASHAR JEWELLERS PRIVATE LIMITED
46	U26960UP2015PTC069002	A B BATHFIT PRIVATE LIMITED
47	U27100UP2014PTC062402	VISHVESHARAY ISPAT PRIVATE LIMITED
48	U27104UP1988PTC009347	VARIETY STEELS PRIVATE LIMITED
49	U27104UP2006PTC031443	JAI SHANI ISPAT PRIVATE LIMITED
50	U28112UP2011PTC043314	GORAKHPUR ISPAT PRIVATE LIMITED
51	U28112UP2014PTC063774	DOORLINE LOCKS & HARDWARE PRIVATE LIMITED
52	U29119UP2016PTC083561	ANICO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
53	U29211UP1999PTC024613	SHREE KRISHNA DIESELS ENGINE PRIVATE LIMITED
54	U29253UP2015PTC068746	EOLE WATER INDIA PRIVATE LIMITED
55	U29308UP1926PLC000316	ALIGARH ELECTRIC SUPPLY CO LIMITED
56	U30005UP2010PTC039694	SEISHIN TECHNO ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
57	U31101UP1973PLC003818	PRINTING MACHINES INDIA LIMITED
58	U31900UP2016PTC085830	HIGHTECH SOLAR AND ELECTRICAL PRIVATE LIMITED
59	U31908UP2015PTC071516	MAK POWER SYSTEM PRIVATE LIMITED
60	U31908UP2015PTC073028	SHUBH SWASTIK HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
61	U31908UP2016PTC075479	HAMSINI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
62	U32109UP2014PTC062844	ABANICO LIGHTS PRIVATE LIMITED
63	U33110UP2009PTC038797	SILVERLEAF PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
64	U33111UP2015PTC072924	RADEX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
65	U33201UP1972PTC003593	FERRITIES AND ELECTRONICS COMPONENTS PRIVATE LIMITED
66	U36109UP2016PTC087704	CULTURE WINDOW PRIVATE LIMITED
67	U36993UP2011PTC044691	AMBIC REMEDIES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
68	U37100UP2009FTC037924	MARIS ENVIRONMENT PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
69	U40300UP2016PTC086333	WATTSPHERE ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
70	U45101UP1996PTC019502	CORBETT COUNTRY RESORT PRIVATE LIMITED
71	U45201UP1990PTC011940	TRUMP CEMENT AND CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
72	U45201UP1992PTC014004	ODDH COMBINES PRIVATE LIMITED
73	U45201UP1996PTC020908	DASHMESH CONSTRUCTION AND HOUSING PRIVATE LIMITED
74	U45201UP2005PTC029502	TOPEND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
75	U45201UP2005PTC030449	URIMILA SHELTERS PRIVATE LIMITED
76	U45201UP2005PTC046485	GYANCHANDANI HOUSING AND INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
77	U45201UP2006PTC031305	SHREE HARI CIVITECH PRIVATE LIMITED
78	U45201UP2006PTC032407	SHREE SAGAR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT & CONSTRUCTION PRIVA
79	U45201UP2014OPC064903	WE DREAM CONSTRUCTION OPC PRIVATE LIMITED
80	U45201UP2014PTC062189	VIBRANT INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
81	U45400UP2013PTC059442	CONFIANCE HOUSING PRIVATE LIMITED
82	U45400UP2013PTC059631	ACUMEN HOMES PRIVATE LIMITED
83	U45400UP2014PTC065233	KARTIK BUILDMART PRIVATE LIMITED
84	U45400UP2014PTC065814	MARG DAD BUILDTECH PRIVATE LIMITED
85	U45400UP2014PTC066868	C4S CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
86	U45400UP2014PTC067401	SANTUSHTI INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
87	U45400UP2016PTC084314	EMON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
88	U45401UP1993PLC015573	SHREE SHYAM INTERNATIONAL LIMITED
89	U45500UP2016PTC084691	ARUSH AND HARSHIT CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
90	U50102UP2004PTC028523	SRI RAM BALI MOTORS PRIVATE LIMITED
91	U50500UP2017PTC091018	NEW ABS SOLUTION AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
92	U51101UP2012PTC052286	OAK LABORATORIES PRIVATE LIMITED
93	U51101UP2012PTC053702	G.P. RETAILMART PRIVATE LIMITED
94	U51101UP2013PTC054770	ASSOCIATED FRIENDS MARKETING PRIVATE LIMITED
95	U51101UP2013PTC055323	WISE MOO LABS PRIVATE LIMITED
96	U51101UP2013PTC057802	BALAJI DIVINE TRADERS PRIVATE LIMITED
97	U51101UP2015PTC073769	MINDOS PHARMA PRIVATE LIMITED
98	U51101UP2016PTC077078	TALAN EXIMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
99	U45400UP2011PTC047517	MAHESH INFRABUILD PRIVATE LIMITED
100	U45400UP2011PTC047521	MAHESH INFRAHEIGHTS PRIVATE LIMITED
101	U45400UP2012PTC050652	GS INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
102	U45400UP2012PTC051882	L.S.R.S REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
103	U45400UP2013PLC057632	SURYADARSHAN INFRATECH LIMITED
104	U45400UP2013PTC055586	K.R.S. MINERALS PRIVATE LIMITED
105	U45400UP2013PTC055691	PLAZAPLUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
106	U45400UP2013PTC058501	VIJAY KUMAR YADAV CONTRACTOR PRIVATE LIMITED
107	U45400UP2013PTC059287	SAI BHAGWAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
108	U45202UP2014PTC063860	AKARSHKAMAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
109	U45202UP2014PTC063996	AVS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
110	U45202UP2014PTC064411	LA-IMPRA TEL PARKS SPV PRIVATE LIMITED
111	U45203UP2016PTC086428	TTD REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
112	U45204UP2013PTC060459	ISRANI HOUSING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
113	U45309UP2016PTC083091	PRATEEK INFRASOLUTIONS PRIVATE LIMITED
114	U45400UP2009PLC038733	ALLIANCE TOWNPLANNERS LIMITED
115	U45400UP2009PTC038156	AMAN INFRACON PRIVATE LIMITED



S.No.	CIN No.	Company Name
116	U45400UP2010PTC040869	TEKRIWAL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
117	U45400UP2011PTC043921	SHANKAR INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
118	U45201UP2014PTC062814	MSS INFRA TECH POWER PRIVATE LIMITED
119	U45201UP2014PTC064776	SVASTI VENTURES PRIVATE LIMITED
120	U45202UP2013PTC061050	BALAJISHAKTI CORPORATION PRIVATE LIMITED
121	U55204UP2016PTC076609	KHANDELWAL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
122	U63022UP2004PLC028576	SURAJ SHEETALAYA LIMITED
123	U63030UP2017PLC094076	INDOSPIRE JOURNEYS LIMITED
124	U63090UP2009PTC036727	DURJAY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
125	U63090UP2010PTC042514	ENDEAVOR TRAVELS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
126	U63090UP2011PTC043675	FALCON AIRVOYAGES PRIVATE LIMITED
127	U63090UP2014PTC067183	G K GLOBAL TOURPLANNER PRIVATE LIMITED
128	U63090UP2015PTC070946	NOMADIC HOLIDAY SERVICES PRIVATE LIMITED
129	U64204UP2012PTC050573	HEAVY TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
130	U64204UP2013PTC058971	ADEPTVISION TECHNOLOGIES & SERVICES PRIVATE LIMITED
131	U64204UP2015PTC071661	SHREE NARAYAN COMTECH PRIVATE LIMITED
132	U65110UP1993PTC015478	J.P. HOSPITAL PRIVATE LIMITED
133	U65921UP1925PTC000288	JAIN AND CO PVT LTD
134	U65923UP2015PLC071061	AYUSH NIDHI LIMITED
135	U65991UP2014PLC066678	UNITY MUTUAL NIDHI LIMITED
136	U65991UP2014PLC066898	PANCHMUKHI NIDHI LIMITED
137	U65991UP2015PLC073300	ANCHAL INDIA NIDHI LIMITED
138	U67190UP1995PTC018380	DAIRY FUN FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
139	U55204UP2013PTC054524	TATHAGAT HOTELS PRIVATE LIMITED
140	U55204UP2014PTC065205	GRANO INNS & SUITES PRIVATE LIMITED
141	U55204UP2015PTC070742	N.M.S RESORTS & HOTELS PRIVATE LIMITED
142	U51102UP1998PLC023186	DYNAMIC PUBLICATIONS (INDIA) LIMITED
143	U51109UP1987PTC009203	SAPNA PALACE TALKIES PRIVATE LIMITED
144	U51226UP1997PTC022525	MAA KATYAYNI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
145	U51397UP2005PTC030069	MAPLE DRUGS PRIVATE LIMITED
146	U51909UP2016PTC087936	CAREFUL DRUGS & PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
147	U51909UP2018PTC102480	ILLUMINE COSMETICS PRIVATE LIMITED
148	U52100UP2009PTC039058	KAMALA AAHAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
149	U52100UP2012PTC050699	HEERAWALA JEWELS PRIVATE LIMITED
150	U52100UP2012PTC054230	AANJANEYAKRIPA MARKETING & INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
151	U52100UP2014PTC064893	LUNAR TRADERS PRIVATE LIMITED
152	U52100UP2014PTC066875	ECLECTIC KRAFTS PRIVATE LIMITED
153	U52100UP2015PTC072908	KIMINU ONLINE TRADERS PRIVATE LIMITED
154	U52392UP2005PTC030211	PIXEL COMMUNICATION SYSTEM PRIVATE LIMITED
155	U52601UP2016PTC087965	PAASH ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
156	U52609UP2016PTC084834	LOCAL MEDICAL STORE MARKETPLACE PRIVATE LIMITED
157	U52609UP2017PTC091367	CHAUDHARY LIFECARE PRIVATE LIMITED
158	U55101UP1992PTC014021	PURUSHOTTAM HOTELS PRIVATE LIMITED
159	U55101UP2005PTC029433	APNA HOTELS AND RESTRA PRIVATE LIMITED
160	U55101UP2016PTC084569	ARUGVIJYA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
161	U70100UP2013PTC061073	RUDRA SHIVA INFRA BUILD PRIVATE LIMITED
162	U70100UP2013PTC061384	R.K. AMAAN INFRA BUILDERS PRIVATE LIMITED
163	U70100UP2014PLC063175	REAL GREEN REAL ESTATE INDIA LIMITED
164	U70100UP2014PTC062368	CELEBRUS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
165	U70100UP2014PTC062510	ASSOTECH DREAM PROJECTS PRIVATE LIMITED
166	U70100UP2014PTC062639	STARK REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
167	U70100UP2014PTC062904	LUXMIDAS INFRATECH PRIVATE LIMITED
168	U70100UP2014PTC063462	VASUDEVKRISHNA INFRACITY PRIVATE LIMITED
169	U70100UP2014PTC063463	VASUDEVKRISHNA REALBUILD PRIVATE LIMITED
170	U70100UP2014PTC063470	SJN INFRATECH PRIVATE LIMITED
171	U70100UP2014PTC063542	TRILOGY STRUCTURES PRIVATE LIMITED
172	U70102UP2010PLC041926	KKS INFRADEVELOPER LIMITED
173	U70102UP2010PTC041098	SHIVAMTECH CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
174	U70102UP2011PLC046892	DHENU INFRATECH INDIA LIMITED
175	U70102UP2011PTC043714	IP OMJA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
176	U70102UP2011PTC043897	BRAHMA INFRA BUILDERS PRIVATE LIMITED
177	U70102UP2011PTC045800	SHRI SAI BABA LAND PROFILE PRIVATE LIMITED
178	U70102UP2011PTC045873	PRABHU INFRABUILD PRIVATE LIMITED
179	U70102UP2011PTC046407	SHUBHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
180	U70102UP2011PTC046572	YADUVANSHI COLONISERS PRIVATE LIMITED
181	U70102UP2011PTC046589	YADUVANSHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
182	U70102UP2011PTC047875	PRABHU INFRASTRUCTURE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
183	U70102UP2012PTC049142	REALISTIC LANDMARK PRIVATE LIMITED
184	U70102UP2012PTC049146	DAWN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
185	U70102UP2012PTC049198	ROYAL AVADH LANDMARK PRIVATE LIMITED
186	U70102UP2012PTC050569	PBAD INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
187	U70102UP2012PTC050853	SPARSH INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
188	U70102UP2012PTC051661	RAJDHANI INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
189	U70102UP2012PTC051719	OJ INFRABUILD PRIVATE LIMITED
190	U70102UP2012PTC051948	COMRADE REALTORS PRIVATE LIMITED
191	U70102UP2012PTC052007	EARTH INFRATOWN PRIVATE LIMITED
192	U70102UP2012PTC054391	SYNOVUM INFOTECH PRIVATE LIMITED
193	U70102UP2013PLC059506	SAVIOUR REALESTATE INDIA LIMITED
194	U70102UP2013PLC059670	DEVASHRAY INFRABUILD LIMITED
195	U70102UP2013PTC054739	MINARETS INFRATECH PRIVATE LIMITED
196	U70102UP2013PTC057066	SHAMIYANA REALTORS PRIVATE LIMITED
197	U70102UP2013PTC057166	CASTLEPRIMA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
198	U70102UP2013PTC057556	THREESKS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
199	U70102UP2013PTC057968	PDM TECH PRIVATE LIMITED
200	U70102UP2013PTC058034	ANIKA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
201	U70102UP2013PTC058216	BAPU PLANNER AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
202	U70102UP2014PLC065987	SKYSTAR INFRAESTATE INDIA LIMITED
203	U70102UP2014PTC065379	RAHULGOLDEN INFRA REAL PRIVATE LIMITED
204	U70102UP2014PTC066240	GENCON INFRATECH PRIVATE LIMITED
205	U70102UP2014PTC066732	GSSR SKYHEIGHTS PRIVATE LIMITED
206	U70102UP2014PTC067815	S.D.S. INFRAVENTURE PRIVATE LIMITED
207	U70102UP2014PTC067841	SUPERVISION INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
208	U70102UP2015PLC075282	UAS INFRADEVELOPERS LIMITED
209	U70102UP2015PTC068127	ARINDAM BHUMI PROJECTS PRIVATE LIMITED
210	U70102UP2015PTC068410	AKSHARA BUILDCON PRIVATE LIMITED
211	U70102UP2015PTC070159	LALA MANSARAM REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
212	U70102UP2015PTC071732	PARAMHANS INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
213	U70102UP2015PTC072399	PROPEX CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
214	U70102UP2015PTC072671	SANAATAN BUILDZONE PRIVATE LIMITED
215	U70102UP2015PTC072816	HANUMANTKRIPA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
216	U70102UP2015PTC073919	SSH INFRA TECH PRIVATE LIMITED
217	U70102UP2015PTC073994	AAKASHDEEP INFRABUILD PRIVATE LIMITED
218	U70102UP2015PTC074369	OJASVINLIFE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
219	U70102UP2015PTC074918	AHMAD BUILDERS PRIVATE LIMITED
220	U70102UP2016PTC075555	SILVERMAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
221	U70102UP2016PTC077376	SAMBRIDHI HOUSING & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
222	U70109UP2016PTC083390	SIDDHIDATRI EARTH MOVERS PRIVATE LIMITED
223	U70109UP2016PTC084282	DIAL 4 PROPERTY PRIVATE LIMITED
224	U70109UP2016PTC088069	STONEVILLA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
225	U70200UP2017PTC095936	NITYANAND ASHRAM PRIVATE LIMITED
226	U72110UP1997PTC022096	NARESH CORRUGATED BOARDS PRIVATE LIMITED
227	U72200UP2016OPC082952	ARVINDAM INFOTECH PRIVATE LIMITED (OPC)
228	U72200UP2016PTC083645	BESTUMBEST INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
229	U72300UP2006PTC031201	OM HARI INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
230	U72300UP2012PTC051112	HQVFX COMPUTING LAB PRIVATE LIMITED
231	U72300UP2012PTC051905	QUADRA COMPUTECH PRIVATE LIMITED
232	U72300UP2013PTC058625	VIBRANT INFOTECH PRIVATE LIMITED
233	U72300UP2013PTC059849	ASK TO RAY TELE INFO PRIVATE LIMITED
234	U72300UP2014PTC065272	TECHNOCRATIC GLOBAL PRIVATE LIMITED
235	U72300UP2014PTC065763	GEARON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
236	U72300UP2014PTC066533	WIBE LABS PRIVATE LIMITED
237	U72300UP2014PTC066609	ADIUTRIX ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
238	U72300UP2014PTC066905	APOGEE INFOTECH PRIVATE LIMITED
239	U72300UP2015PTC068776	ADICTO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
240	U72300UP2015PTC069726	DJP TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
241	U70102UP2013PTC058216	COMB EYE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
242	U70102UP2014PLC065987	PHELIX INFOTECH PRIVATE LIMITED
243	U70102UP2014PTC065379	RAMPAL SINGH MUKHTYAR AHMAD SOFTECH PRIVATE LIMITED
244	U70102UP2014PTC066240	ALRIK INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
245	U70102UP2014PTC066732	PIXET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
246	U70102UP2014PTC067815	ITRIUM GLOBAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
247	U70102UP2014PTC067841	SWORLITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
248	U70102UP2015PLC075282	B2M GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
249	U70102UP2015PTC068127	NIDHI DIGITALBEE PRIVATE LIMITED
250	U70102UP2015PTC068410	SNM DIGITAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
251	U70102UP2015PTC070159	RITUAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
252	U70102UP2015PTC071732	DOMAINSHAPERS (OPC) PRIVATE LIMITED
253	U70102UP2015PTC072399	TECHROUNDERS PRIVATE LIMITED
254	U70102UP2015PTC072671	SINOPIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
255	U70102UP2015PTC072816	PRAVISH BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
256	U70102UP2015PTC073919	AIM WEB TECH PRIVATE LIMITED
257	U70102UP2015PTC073994	ARJANX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
258	U70102UP2015PTC074369	SAMPRIITI INFOTECH PRIVATE LIMITED
259	U70102UP2015PTC074918	MYSTERIOUS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
260	U70102UP2016PTC075555	JINIBRAIN PRIVATE LIMITED
261	U70102UP2016PTC077376	STEIGESYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
262	U70109UP2016PTC083390	RISING STAR MULTISERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
263	U70109UP2016PTC084282	GOLDENMATCHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
264	U70109UP2016PTC088069	APNA PRODUCTION AND PRINTMEDIA PRIVATE LIMITED
265	U70200UP2017PTC095936	LALCHAND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
266	U72110UP1997PTC022096	LORDBUDDHA SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED
267	U72200UP2016OPC082952	HP MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
268	U72200UP2016PTC083645	JET STAR TRAINING INSTITUTE OF MERCHANT NAVY PRIVATE LIMITED
269	U72300UP2006PTC031201	SAMRIDHI FILM CO PRIVATE LIMITED
270	U72300UP2012PTC051112	SANTINO BOOKS SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
271	U72300UP2012PTC051905	SEEMYINDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
272	U72300UP2013PTC058625	NEXT ORBIT VENTURES PRIVATE LIMITED
273	U72300UP2013PTC059849	AQSA TOBACCO PRIVATE LIMITED
274	U72300UP2014PTC065272	MBSC PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
275	U72300UP2014PTC065763	SUPER BIOFRESH PRIVATE LIMITED
276	U72300UP2014PTC066533	3MB FOODS PRIVATE LIMITED
277	U72300UP2014PTC066609	TURBOTEK INDIA PRIVATE LIMITED
278	U72300UP2014PTC066905	SOCIAL GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED
279	U72300UP2015PTC068776	GYNEOLIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
280	U72300UP2015PTC069726	TIARA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (OPC)
281	U74120UP2015OPC071312	NARAYANSINGH SECURITY SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
282	U74120UP2015PTC068543	TROLL INDIA MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
283	U74120UP2015PTC068748	VIJAYALAXMI CEMENT PRIVATE LIMITED
284	U74120UP2015PTC068956	KAPIZ PRECAST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
285	U74120UP2015PTC068964	MANIBHUSHAN GEMS AND JEWELS PRIVATE LIMITED
286	U74120UP2015PTC069378	ADYASHAKTI TRADERS PRIVATE LIMITED
287	U74120UP2015PTC069581	EDLYNX PRIVATE LIMITED
288	U74120UP2015PTC069729	EDOCENT ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
289	U74120UP2015PTC070603	SALESMART SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
290	U74120UP2015PTC071298	LAVINATION E-TECH PRIVATE LIMITED
291	U74120UP2015PTC071670	GULMOHAR INCENSE INDIA PRIVATE LIMITED
292	U74120UP2015PTC071812	KHAADAR RETAIL & EXPORTS PRIVATE LIMITED
293	U74120UP2015PTC072525	ARU ADVENTURES PRIVATE LIMITED
294	U74120UP2015PTC072857	REAL EARTH GEO TECH PRIVATE LIMITED
295	U74120UP2015PTC075288	ADAD FINVEST CONSULTANT PRIVATE LIMITED
296	U74120UP2016PTC075471	ROBOSTRAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
297	U74120UP2016PTC076139	RENEWABLE INDIA INDUSTRIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
298	U74120UP2016PTC076369	BALLY HOO LAB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
299	U74120UP2016PTC076697	MAXOQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
300	U74120UP2016PTC077303	MYCREST SERVICES PRIVATE LIMITED
301	U74120UP2016PTC077346	JASPER OVERSEAS PRIVATE LIMITED
302	U74140UP1989PTC010726	ENGTECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
303	U74200UP2010PTC041048	SYNERGIC GREENTECH PRIVATE LIMITED
304	U74210UP2008PTC036305	SHREE SAISHIV ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
305	U74900UP2008PTC036117	SILVER SPEAR SOLUTION & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
306	U74900UP2009PTC037983	NUMERO UNO REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
307	U74900UP2010PLC042040	BONNE FORTUNE INFRASTRUCTURE AND CONSULTANCY SERVICES LIMITE
308	U74900UP2010PTC039478	KOHINOOR VITRIFIED TILES AND CERAMICS PRIVATE LIMITED
309	U74900UP2010PTC040482	VECTOR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
310	U74900UP2010PTC041129	AAWAZ INFOTECH PRIVATE LIMITED

S.No.	CIN No.	Company Name
311	U74900UP2010PTC041789	PHYSIC LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
312	U74900UP2010PTC042833	DSA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
313	U74900UP2011PTC043318	SREE GURU TECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
314	U74900UP2011PTC046740	AAROGYA MEDILIFE PRIVATE LIMITED
315	U74900UP2013PTC058294	SUDHITH INFOTECH PRIVATE LIMITED
316	U74900UP2013PTC060381	Z LONG BIOTECH PRIVATE LIMITED
317	U74900UP2014PTC063396	EVERGREENVALLEY AGRO PRIVATE LIMITED
318	U74900UP2014PTC063397	VIDH YANTRIK ENGINEERING PRIVATE LIMITED
319	U74900UP2014PTC064131	TIMEGLOBAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
320	U74990UP2007PTC033453	MOKSH INFRATECH PRIVATE LIMITED
321	U74992UP2009PTC039101	AVADH BUSINESS PRIVATE LIMITED
322	U74992UP2010PTC040103	M. S. TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
323	U74999UP2006PTC031296	APANA VYAVASAYA NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
324	U74999UP2008PLC035506	GURU KRIPA WHEELS LIMITED
325	U74999UP2011PTC046973	ENGINEER'S INTEGRITY INDIA PRIVATE LIMITED
326	U74999UP2011PTC047236	SHRI SHOONYO JI AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
327	U74999UP2014PTC063487	INSIGMA SERVICE SOLUTION PRIVATE LIMITED
328	U74999UP2015PTC074786	LOGICS ADVANCED TECHNOLOGY (I) PRIVATE LIMITED
329	U74999UP2016OPC082867	SOLINUS TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
330	U74999UP2016OPC087961	ALLUSION EYE CARE (OPC) PRIVATE LIMITED
331	U74999UP2016PTC083166	XCELTRADERS PRIVATE LIMITED
332	U74999UP2016PTC083169	OPEL LIGHT PRIVATE LIMITED
333	U74999UP2016PTC084064	HONNESHAS FASHION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
334	U74999UP2016PTC084147	GANGASAGAR SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
335	U74999UP2016PTC084882	PEAPOD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
336	U74999UP2016PTC085182	CRAFTMADE METALS PRIVATE LIMITED
337	U74999UP2016PTC085823	ZIPBOX LOGISTICS PRIVATE LIMITED
338	U74999UP2016PTC085965	APIA PRIVATE LIMITED
339	U74999UP2016PTC086545	EXSERVE CONSULTING PRIVATE LIMITED
340	U74999UP2016PTC086744	ATROUS DESIGNS PRIVATE LIMITED
341	U74999UP2016PTC086772	SSVC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
342	U74999UP2016PTC087258	LORD VENKATESH MANAGMENT AND MARKETING PRIVATE LIMITED
343	U74999UP2016PTC087609	ITEL COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
344	U74999UP2016PTC087647	SMARTHOME APPLIANCES AND DIGITAL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
345	U74999UP2016PTC087912	CRIO SUPPORT INDIA PRIVATE LIMITED
346	U74999UP2016PTC088702	USAB SERVICES PRIVATE LIMITED
347	U74999UP2017OPC092156	PEHLA KADAM EVENTS (OPC) PRIVATE LIMITED
348	U74999UP2017PTC091667	VRAHAT ELECTRICALS AND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
349	U74999UP2017PTC091984	CHIMENEY HILLS FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
350	U74999UP2017PTC092105	ALVA SOLAR LIGHT PRIVATE LIMITED
351	U74999UP2017PTC093311	SRISAISAMRADDHI ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
352	U74999UP2017PTC093372	SKYLINE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
353	U74999UP2017PTC093483	AADVIKA4 ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
354	U74999UP2017PTC093675	KARFTOS SERVICES PRIVATE LIMITED
355	U74999UP2017PTC094046	COURTYARD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
356	U74999UP2017PTC095322	BAGHEL WORKER'S ADDA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMIT

S.No.	CIN No.	Company Name
357	U74999UP2017PTC095630	ABHAVI VENTURES PRIVATE LIMITED
358	U74999UP2017PTC095661	MINAR OVERSEAS RECRUITMENT PRIVATE LIMITED
359	U74999UP2017PTC098188	EMERGENCE LABS PRIVATE LIMITED
360	U74999UP2018PTC103691	RF CAREER POINT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
361	U74999UP2018PTC103863	KASHINATH AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
362	U80211UP2014PTC061991	AGRV TECHNICALITOUS PRIVATE LIMITED
363	U80211UP2014PTC062738	A.P.D.I. EDUSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
364	U80904UP2012PTC050487	LEADING INSTITUTE OF PROFESSIONAL COURSES PRIVATE LIMITED
365	U80904UP2012PTC052584	BALAJI GOPAL SIR COACHING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
366	U80904UP2014PTC065110	EDDICTED ADVISORIES PRIVATE LIMITED
367	U80904UP2014PTC067343	JAGOYA EDUCATION PRIVATE LIMITED
368	U80904UP2017PTC090905	PORT EDUCATION PRIVATE LIMITED
369	U85100UP2007PTC033735	P.M MEDICAL SYSTEM & SERVICES PRIVATE LIMITED
370	U85110UP2017PTC092143	BOSKER LABS PRIVATE LIMITED
371	U85120UP2016PTC085982	ESKEVI BIOTECH PRIVATE LIMITED
372	U85191UP2010PTC040027	ABHIRAJI HOSPITALS PRIVATE LIMITED
373	U85191UP2012PTC051333	PAIN EDUCATIONAL ACADEMY (INDIA) PRIVATE LIMITED
374	U85191UP2015PTC068518	SHUBHAARADHYA BIOTECH PRIVATE LIMITED
375	U85191UP2015PTC071438	UPSURGELABS HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
376	U85191UP2015PTC072533	RV COINAGE HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
377	U92100UP2014PTC061803	FIRSTSTEP PRASTAVANA MEDIA PRIVATE LIMITED
378	U92111UP2003PTC027178	VEDANT VISION PRIVATE LIMITED
379	U93000UP2013PTC060892	SATIJA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
380	U93000UP2017PTC091084	SHARP HOME CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
381	U93030UP2004PTC029355	CHARANJEET INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
382	U93030UP2011PTC045263	JETSTAR TRAINING INSTITUTE OF AERONAUTICS PRIVATE LIMITED
383	U93030UP2012PTC049071	ASTRUM SOFTECH PRIVATE LIMITED
384	U93030UP2013PTC056394	ZADON ENGINEERING PRIVATE LIMITED
385	U93030UP2015OPC068922	UNNATI INDIA MULTISERVICES PRIVATE LIMITED (OPC)
386	U93030UP2015OPC069493	SAMAR (INDIA) WATER PURIFIER PRIVATE LIMITED (OPC)
387	U93030UP2015OPC070940	TERMINALAPPS SOFTWARE PRIVATE LIMITED (OPC)
388	U93030UP2015OPC071328	MPOWER VENTURES PRIVATE LIMITED (OPC)
389	U93030UP2017PTC097788	ATCI TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
390	U93090UP2007PTC032952	TREND SETTER PRODUCT CHAINS PRIVATE LIMITED
391	U93090UP2016OPC083125	INEFFABLE MAGNET PRIVATE LIMITED (OPC)
392	U93090UP2017OPC095731	SHRI DYOMI MAHAKALI MULTISERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
393	U93090UP2017PTC095549	ATMAN APPARELS PRIVATE LIMITED

SUDHIR KAPOOR  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh

FORM NO.STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Srinagar, the 2nd January 2019

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 in respect of:

No. ROC/STK-6/1649—(1) Notice is hereby given that the Registrar of companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies act, 2013 for removal of its/their name(s) from the

register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they not wish to continue its/their registration as companies and have, therefor, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the registrar of companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above with thirty days from the date of publication of this notice.

S.No	SRN	Form ID	Company Name
1	H22494405	Form STK-2	VSRG PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2	H21478086	Form STK-2	JSK GLOBAL MILK AND FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3	G92434323	Form STK-2	SAMIK ACADEMY OF SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
4	H01639137	Form STK-2	EBIZ MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
5	H34557249	Form STK-2	MKM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
6	G89119689	Form STK-2	HIMALAYA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
7	G92238369	Form STK-2	ARYAN INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
8	H05429766	Form STK-2	AL-WADOOD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
9	G92434430	Form STK-2	GREEN HITECH ENERGY PRIVATE LIMITED
10	G91812933	Form STK-2	BASIT PLASTICS PRIVATE LIMITED
11	G92434711	Form STK-2	ASTRAL PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED

RUVIT KUMAR  
Registrar of Companies cum  
Official Liquidator  
Jammu & Kashmir

#### NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to section 75 of the LLP Act, 2008 and rule 37 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009]

In the matter of The Limited Liability Partnership Act, 2008 and of following LLPs

Patna-800001, the 2nd January 2019

No. ROC/PAT/LLP/F-24/Strike off/2018/2430—

Sl. No.	Name of LLP	LLPIN	SRN
1.	ENAMEL DENTAL LAB LLP	AAH-3957	M07349921
2.	SKYNETECH GLOBAL LLP	AAF-7203	M07584691
3.	LAMODE CONSULTING ENGINEERS LLP	AAC-6165	M06308688
4.	AMAIRA SOFT LLP	AAA-8139	M06548887
5.	CREATIVE CREW LLP	AAD-9116	M06491088

This is with respect to this Office's Notice No. ROC/PAT/LLP/Strike Off/R-37, dated 08.08.2018, 27.06.2018 and applications (Form 24) dated 04.06.2018, 04.07.2018, 02.04.2018, 05.05.2018, 30.04.2018, Notice is hereby published that pursuant to section 75 of The Limited Liability Partnership Act 2008 the name of above mentioned LLPs this day of 02.01.2019 been struck off the register of Companies and the said LLP is dissolved.

HIMANSHU SHEKHAR  
Registrar of Companies  
Bihar

## FORM No. STK-7

## NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

{Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016}

In the matter of Companies Act, 2013 and of the following Companies

Bangalore-560034, the 8th January 2019

No. STK-7/ROC(B)/2019/2/2781—Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of their names from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the companies are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the companies have obtained the status of dormant company, but they do not wish to continue their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

2) Accordingly, the Registrar of Companies removed or strike off the following companies on this day of 2.01.2019 from the Register of Companies and the said Companies are dissolved.

## FORM No. STK-7

## NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

No. ROCBAN/{Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016}, that the name of the undermentioned companies have been struck off from the register and the said companies stand dissolved on 8th January, 2019

Sl.No.	CIN	Company Name
1	U74999KA2016PTC092699	TEACHSITY EDUSERVICES PRIVATE LIMITED
2	U74900KA2016PTC085476	UDAYATI VIHASTA PRIVATE LIMITED
3	U74999KA2016PTC095096	66 HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
4	U74900KA2012PTC064893	COLORSHOTS CONSULTING PRIVATE LIMITED
5	U80902KA2016PTC092595	COLLEGESNIPE PRIVATE LIMITED
6	U74120KA2012PTC067470	TEEM GLOBAL VACATIONS PRIVATE LIMITED
7	U74900KA2015PTC081910	GOBSMACKED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	U72900KA2013PTC071003	COGNIBLOOM WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	U72200KA2005PTC037597	MAGIC LAMP SOFTWARE PRIVATE LIMITED
10	U74900KA2015PTC081932	UYM CAREERS PRIVATE LIMITED
11	U74900KA2015PTC081811	UYM MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	U74999KA2016PTC096112	ERPGECKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	U74900KA2013PTC069885	VEDIC VASTU INDIA PRIVATE LIMITED
14	U63013KA2008PTC044885	AIRONE CARGO PRIVATE LIMITED
15	U72200KA2012FTC064706	CONTRAIL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
16	U74900KA2013PTC072584	S.M.STAR INDIA PRIVATE LIMITED
17	U72900KA1999PTC025644	SHREENATH INFORMATION AND COMMUNICATIONS RESEARCH SYSTEMS P
18	U70109KA2017PTC100319	SELECTIVEARTH PRIVATE LIMITED
19	U72200KA2015PTC079267	RAIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	U51909KA2016PTC093599	AVVAANT ELECTRO ENERGY PRIVATE LIMITED
21	U74900KA2013PTC067549	A.W. TRADING AND INTERIORS PRIVATE LIMITED
22	U70102KA2014PTC076345	SAMANVITA SHELTERS INDIA PRIVATE LIMITED
23	U72200KA2010PTC055766	YIDAM WEB PROJECTS PRIVATE LIMITED
24	U72200KA2017FTC102896	MILVIK TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
25	U74900KA2008PTC048139	INCREDIBLE INSPIRATIONS FINVEST PRIVATE LIMITED
26	U22210KA1975PTC002879	THE JAYA KARNATAKA NEWS PRINTERS PRIVATE LIMITED
27	U63040KA2014PTC075412	PGS LOGISTICS PRIVATE LIMITED



Sl.No.	CIN	Company Name
28	U51109KA1996PTC020737	PANCHA RATHNA TRADING PRIVATE LIMITED
29	U01403KA2012PTC066300	RASDASHAN AGRO PRIVATE LIMITED
30	U72200KA2013PTC072186	PARENTHESIZE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U80300KA2009PTC050891	REDDY'S EDUCATIONAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
32	U26957KA1973PTC002315	SERVO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
33	U45202KA2008PTC048579	SEC PROPERTY PRIVATE LIMITED
34	U72200KA2009PTC050739	ECANDOR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
35	U15500KA2000PTC026391	JUNIPER FOODS PRIVATE LIMITED
36	U72200KA2017PTC100681	FIDZEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	U72200KA2008PTC045291	CLAY-TOKENS INFOTECK PRIVATE LIMITED
38	U72200KA2013PTC068509	PROTHOUGHT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
39	U29299KA1999PTC026129	PROTECH FABRICATION PRIVATE LIMITED
40	U74900KA2009PTC051607	DHEE TECHNO LABS PRIVATE LIMITED
41	U73200KA2013PTC070787	PCLOUD DESIGN LABS PRIVATE LIMITED
42	U02001KA1995PTC017658	CHELAVARA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
43	U72501KA2017PTC100992	EMES INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
44	U85110KA1991PTC012418	POORNIMA TILES PRIVATE LIMITED
45	U85100KA2008PTC047392	SHLOKAS FITNESS STUDIO PRIVATE LIMITED
46	U45205KA2016PTC085814	IMPLEMENTING THOUGHTS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
47	U29140KA2010PTC054875	STEAMMAX ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
48	U01118KA2007PTC043831	CELLENT BIOTECH PRIVATE LIMITED
49	U74900KA2015PTC081405	CHEKKOO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	U18101KA2006PTC038177	V5 FASHIONS PRIVATE LIMITED
51	U45205KA2015PTC081407	AINTREE INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
52	U72200KA2011PTC059415	FINAYANA SOFTWARE & SERVICES PRIVATE LIMITED
53	U74999KA2007PTC044745	ROBHATAH ROBOTIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
54	U72200KA2011PTC056545	DIGITALIEN E-CREATIONS PRIVATE LIMITED
55	U15122KA2011PTC057959	OMKAR SUGARS AND POWER PRIVATE LIMITED
56	U40101KA2006PTC038494	SHAKUNTALAM POWER PRIVATE LIMITED
57	U72900KA2015PTC079307	TRAPOT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
58	U74900KA2014PTC077514	SEWAONDEMAND SERVICES PRIVATE LIMITED
59	U85110KA1996PLC019620	KALYANI HABITAT LIMITED
60	U85110KA1996PLC019624	KALYANI HIGHWAY DEVELOPERS LIMITED
61	U51909KA2017PTC100870	ARCHITA GLOBAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
62	U67120KA2008PTC048734	K NARAYANA STOCKS AND SHARES PRIVATE LIMITED
63	U72200KA2014PTC077792	INSTASHOPPE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
64	U72400KA2007PTC043808	NGENIA LABS PRIVATE LIMITED
65	U80301KA2010PTC055213	FREEVECTOR EDU VENTURES PRIVATE LIMITED
66	U72400KA2014PTC076483	GLYDEL TECH PRIVATE LIMITED
67	U63040KA2012PTC063678	MY HOLIDAYS MY WAY PRIVATE LIMITED
68	U74900KA2012PTC062574	GREENFIN IMPEX TRADING PRIVATE LIMITED
69	U45200KA2012PTC064253	MAKERSBEST BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
70	U74140KA2014PTC073066	AVIGHNA CREATIVES INDIA PRIVATE LIMITED
71	U93090KA2017PTC100998	VALTECH CONSULTING PRIVATE LIMITED
72	U63022KA1971PTC002043	BINAGA ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
73	U72200KA2015PTC081415	ALTIORE DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
74	U45200KA2015PTC084990	PLATINUMFEATHERS INFRAA PRIVATE LIMITED
75	U74999KA2017PTC101962	QLYTIX INDIA PRIVATE LIMITED
76	U70100KA2014PTC076285	PROPMONK REALTY PRIVATE LIMITED
77	U72200KA2015PTC078196	NEOBORG TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
78	U45309KA2016PTC092750	BHARAT PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
79	U72200KA2003PTC031971	CLOUD 9 HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
80	U72200KA2012PTC064343	EDZILLA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
81	U72200KA2015PTC081226	QREATIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
82	U45200KA2014PTC074617	ARYA TEJAS DEVELOPERS AND REALTORS PRIVATE LIMITED
83	U22300KA2005PTC036188	SCRIPT AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
84	U74900KA2014OPC076063	G-MARTECH TECHNICAL CONSULTANCIES AND SERVICES PRIVATE LIMIT
85	U26933KA2013PTC068612	SUNFA PIERRA PRIVATE LIMITED
86	U02001KA2008PTC046113	YAMINI AGRO-TECH PRIVATE LIMITED
87	U73100KA2012FTC067065	NOVEL CLINICAL RESEARCH (INDIA) PRIVATE LIMITED
88	U74140KA2005PTC037485	ACCUDOT CONSULTING PRIVATE LIMITED
89	U72200KA2015PTC083098	ARTHA AURA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
90	U01010KA2005PTC035816	TRANSIT SURVEYS PRIVATE LIMITED
91	U24248KA2007PTC043115	FLORIBUNDA FRAGRANCES PRIVATE LIMITED
92	U80903KA2008PTC047771	COLLEGE FOR LANGUAGE AND VOCATIONAL TRAINING PRIVATE LIMITED
93	U45205KA2014PTC076422	RISHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
94	U72200KA2013PTC069571	SAAKSHIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
95	U74900KA2011PTC058320	SIRI LAXMI PROCESSING COMPANY PRIVATE LIMITED
96	U32308KA2010PTC052408	VXOOM DEVICES PRIVATE LIMITED
97	U74999KA2016PTC096546	METRICSWIKI PRIVATE LIMITED
98	U72900KA2016PTC092303	MEETURITE PRIVATE LIMITED
99	U17221KA2009PTC050252	DODDABALAPUR INTEGRATED TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED
100	U72200KA2014PTC074623	FAIRKET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
101	U72900KA2015PTC083513	HONKNBID TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
102	U45205KA2016PTC087110	TEAMASAP PROJECT MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
103	U74900KA2014OPC075147	BHAVANI E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
104	U74999KA2016PTC096879	UNIC LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
105	U70102KA2007PTC043938	LIMITLESS PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
106	U72200KA2013PTC068039	ONEPOWER CLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED
107	U51109KA2013PTC072261	SYSSTRA WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
108	U14101KA2000PLC027947	ROCKLINES NATURE STORE LIMITED
109	U52100KA2012PTC065979	C2B JEWELS RETAIL PRIVATE LIMITED
110	U74900KA2016PTC087062	ROLLINGREEL STUDIOS PRIVATE LIMITED
111	U85120KA2010PTC053792	PRANAMA PLEXUS PRIVATE LIMITED
112	U72900KA1988PTC009476	BRINDAVAN SOFTLAND PRIVATE LIMITED
113	U55101KA1999PTC025174	ZAINAB FATIMA FAST FOODS PRIVATE LIMITED
114	U72200KA2016OPC086056	BRIDALEGE SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
115	U65992KA2006PTC039138	SHRI AUSTLAXMI CHITS PRIVATE LIMITED
116	U72200KA2013PTC071312	LOTUS SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED
117	U67100KA2017PTC108469	TCEJORP A&B FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
118	U67190KA2006PTC040429	PCR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
119	U74999KA2016PTC092845	MAGNET SPORTS PRIVATE LIMITED
120	U74900KA2015PTC084496	D FABSTOREY PRIVATE LIMITED
121	U74900KA2015PTC080496	MUDTREE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
122	U74900KA2016OPC086926	INTEGRATED BIZCORP (OPC) PRIVATE LIMITED
123	U45202KA2014PTC076263	SAI SIRI VENTURES D-INDIA PRIVATE LIMITED
124	U64200KA2014PTC074835	ENERGREEN DAS NETWORKS PRIVATE LIMITED
125	U72200KA2011PTC056660	HAVYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
126	U80904KA2009PTC049580	SUCCESSNEXT LIFE ACADEMY PRIVATE LIMITED
127	U70101KA2005PTC037106	PRAKRUTHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
128	U72900KA2016PTC092519	MATHRU IT SERVICES PRIVATE LIMITED
129	U72200KA2013PTC072613	BHAVYAM INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
130	U45400KA2013PTC070226	4WAYSQUARE DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
131	U74900KA2015PTC081432	S V FORTUNERS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
132	U74999KA2016PTC097122	ETZ INDIA PRIVATE LIMITED
133	U72200KA2013FTC069482	INTALIO SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
134	U72200KA2014PTC074793	FILLGOOD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
135	U24119KA1986PTC008008	E.P. LABS PRIVATE LIMITED
136	U74999KA2016OPC094899	SPACIA INTERIAA (OPC) PRIVATE LIMITED
137	U72400KA2014PTC074578	ELEVENITY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
138	U18101KA2003PTC032845	N.NARASAPPA TEXTILE INDIA PRIVATE LIMITED
139	U63090KA2010PTC052212	MILLENIUM PARKING (INDIA) PRIVATE LIMITED
140	U72200KA2012PTC066285	ETASHA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
141	U74999KA2016PTC092516	NAM ALUMINUM EXTRUSIONS PRIVATE LIMITED
142	U22130KA2013PTC070854	MOBCIRCLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
143	U72200KA2006PTC040577	OPEN COUNTRY TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
144	U51109KA2014PTC077461	SPOORTHI HERBALS PRIVATE LIMITED
145	U72900KA2009PTC050122	BONIDEA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
146	U21023KA2015PTC078390	VITHOBHA CARTONS PRIVATE LIMITED
147	U72200KA2015PTC083622	ZOCKET SOFTWARE LABS PRIVATE LIMITED
148	U72200KA2008PTC047402	3G LABS INDIA PRIVATE LIMITED
149	U60200KA2013PTC071571	DACOTRANS SOUTHERN INDIA PRIVATE LIMITED
150	U60231KA2008PTC047730	KARTHIKEYAS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
151	U14200KA2008PTC048144	SANDUR MINERALS & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
152	U72200KA2010PTC055248	ULTISOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
153	U24232KA2014PTC076002	MEDCORE PHARMA PRIVATE LIMITED
154	U92412KA2010PTC054481	GALT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
155	U99999KA1994PTC016074	VINAYAKA STOCKS PRIVATE LIMITED
156	U72900KA2007PTC042322	WILLIAMS CHEESMAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
157	U74900KA2015PTC084938	PANOMICS DIAGNOSTICS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
158	U14292KA2012PTC066473	SHREE SALASAR GRANITES (INDIA) PRIVATE LIMITED
159	U17222KA2010PTC055958	SCARLET CLOTHING PRIVATE LIMITED
160	U74999KA2016PTC093040	E-MEDDOC HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
161	U80301KA2012FTC064572	GKTI INDIA PRIVATE LIMITED
162	U29248KA2016PTC086304	AVAGAMA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
163	U72200KA2013PTC072478	NISAKI TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
164	U72900KA2016PTC097875	BRIDGEBIZ NETWORKS PRIVATE LIMITED
165	U72900KA2017PTC100905	TYCHOON SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
166	U26949KA2007PTC043594	JR NONWOVENS AND WATERPROOFING PRIVATE LIMITED
167	U29244KA2014PTC076315	CASE WERKZ INDIA PRIVATE LIMITED
168	U74900KA2015PTC084927	CLOUD WATER PURIFICATIONS PRIVATE LIMITED
169	U30007KA1994PTC015669	CPD COMPUTER PERIPHERALS DEVICES PRIVATE LIMITED
170	U74900KA2014PTC077875	AKA BUSINESS PROCESS PRIVATE LIMITED
171	U01407KA2015PTC079788	PRATYAGRA FARMS PRIVATE LIMITED
172	U29248KA2013PTC071236	SERVOMAX ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
173	U72200KA2012PTC062176	ISOMETRIC TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
174	U15122KA2015PTC083312	FOODSTER KITCHEN PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
175	U74900KA2015PTC080879	AKSIM MEP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
176	U80211KA2001PTC029076	GENIE KIDS LEARNING RESOURCES PRIVATE LIMITED
177	U01130KA2011PTC060370	SOCIETE AGRO COMMODITIES PRIVATE LIMITED
178	U72200KA2015PTC082601	CELEBRATE MUCOMMERCE PRIVATE LIMITED
179	U45200KA2007PTC044157	MATHRUSHREE PROMOTERS PRIVATE LIMITED
180	U85120KA2008PTC045166	GUARDIAN MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
181	U74110KA2007PTC043443	CN PROFESSIONAL & LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
182	U27101KA2012PTC064261	ARRIGO STEEL INDIA PRIVATE LIMITED
183	U74999KA2017PTC106685	CETO TECHNOCRATS BEVERAGES PRIVATE LIMITED
184	U73100KA2003PTC033091	BIOVEL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
185	U74900KA2015PTC078087	IDROPAN WATER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
186	U45205KA2015PTC080133	KORATH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
187	U72200KA2012PTC065430	ASTERIKS DIGITAL PRIVATE LIMITED
188	U17214KA2014OPC075562	BIZUALYTICS INFOTECH PRIVATE LIMITED (OPC)
189	U80301KA2012PTC066272	GENIUS BRAINS EDUCARE INDIA PRIVATE LIMITED
190	U74999KA2017OPC106470	DANCITUDE FITNESS SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
191	U45205KA2014PTC075549	BVL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
192	U45205KA2014PTC075565	BVL VILLAS PRIVATE LIMITED
193	U72200KA2012PTC065806	NEXT TALENT TRAINERS PRIVATE LIMITED
194	U15209KA2017PTC101460	MANGALORE AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
195	U28999KA2017PTC108247	MANGALORE METALLIX PRIVATE LIMITED
196	U35113KA2014PTC077113	VELOCE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
197	U74999KA2016PTC093515	EKAA GENSET PRIVATE LIMITED
198	U72200KA2004PTC034473	ADPS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
199	U72300KA2010PTC054456	BIDSTALK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
200	U72200KA2011PTC060239	3S INNOVATION AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
201	U70101KA1999PTC024864	DUROFLEX PROPERTIES PRIVATE LIMITED
202	U22190KA2012PTC065620	TALLURS IMPRESS MEDIA PRIVATE LIMITED
203	U74999KA2016PTC097910	PRIMERO TEACHER-INTERFACE PRIVATE LIMITED
204	U72200KA2016PTC095276	AGR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
205	U74999KA2017PTC103589	NITERS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
206	U74900KA2014FTC076332	BRIDGEPARK TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
207	U24100KA2010PTC054068	GREENTON ECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
208	U40104KA2014PTC077583	JUST POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
209	U74900KA2009FTC051447	VIANZA SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
210	U72300KA2014PTC074608	LOOKKNOW TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
211	U74900KA2015PTC082638	KENA FOOD AND WELLNESS PRIVATE LIMITED
212	U72200KA2015PTC082949	PROANS TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED
213	U72900KA2010PTC055925	PROBENCHMARK OUTSOURCING SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
214	U45201KA1994PTC015891	NAVRAS HEAVY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
215	U72200KA2015PTC081617	LEBOOM SOFTTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
216	U74999KA2010PTC052972	GASTRO TECH PRIVATE LIMITED
217	U74999KA2016PTC094569	ALLOCATE SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
218	U52590KA2015OPC078425	GLAERA TRENDS PRIVATE LIMITED (OPC)
219	U05190KA2005PTC035630	AKSHAYA LABELS PRIVATE LIMITED
220	U18101KA2015OPC080834	STHAVI DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED (OPC)
221	U24232KA2015PTC078697	GLOBIOSAGE PHARMA PRIVATE LIMITED
222	U74140KA2015PTC079716	NASH CAPITAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
223	U51909KA1995PTC018794	MAKWEL AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
224	U52590KA2015PTC078902	CIRKA INFOTECH PRIVATE LIMITED
225	U45200KA2013PTC069336	VDB BELLARY RING ROAD PHASE1 PRIVATE LIMITED
226	U45203KA2013PTC069294	VDB BELLARY RING ROAD PHASE 2 PRIVATE LIMITED
227	U13201KA2014PTC077769	ANJANADRI MINERALS PRIVATE LIMITED
228	U72200KA2011PTC060582	JAGRAT TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
229	U72200KA2013PTC071331	ARERA INFOTECH PRIVATE LIMITED
230	U80301KA2012PTC064804	ALFA ACADEMY PRIVATE LIMITED
231	U18101KA2013PTC069313	CAHOOTS GARMENTS PRIVATE LIMITED
232	U65999KA2009PTC050488	NPO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
233	U60200KA2014PTC074784	NIDO RELOCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
234	U51909KA2016PTC094537	HI HUES PRIVATE LIMITED
235	U70100KA2015PTC080889	EEVEE LAND VENTURES PRIVATE LIMITED
236	U40106KA2016PTC098823	GREENFINCH ENERGY PRIVATE LIMITED
237	U72200KA2012PTC062676	STAMP COMPUTERS PRIVATE LIMITED
238	U51900KA2013PTC069774	YAPSHA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
239	U40109KA2009PTC050997	MILLENIUM SYNERGY (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED
240	U80300KA2014PTC073834	WISH EDUCATIONAL PRODUCTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
241	U51909KA2008PTC045232	SILICON HIVE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
242	U52100KA2010PTC054862	HYPERION GREEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
243	U72200KA2012PTC064687	ZINGCHAK SERVICES PRIVATE LIMITED
244	U01711KA2005PTC036915	BOSSA NOVA TEX PRIVATE LIMITED
245	U45400KA2014PTC076526	SANKESHWARA ASSETS PRIVATE LIMITED
246	U74900KA2015PTC081602	DIGILEAN MANAGEMENT CONSULTING PRIVATE LIMITED
247	U74999KA2016PTC097770	VBRANDO DIGITAL MARKETING PRIVATE LIMITED
248	U74900KA2016PTC085243	ORB8 BUSINESS INCUBATION PRIVATE LIMITED
249	U29112KA2001PTC029713	AIRCRAFT BRAKE PADS PRIVATE LIMITED
250	U74900KA2015OPC083883	SWASHBUCKLER VENTURES INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
251	U72200KA2010PTC053199	ASTU INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
252	U74900KA2014PTC074677	CIGNET SECURITY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
253	U72501KA2016PTC097630	BUBBLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
254	U63030KA2016PLC094333	AQUATRANS SHIPPING LIMITED
255	U65993KA1996PTC021034	CALIFORNIA INVESTMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
256	U74999KA2016PTC098584	SPRINGALD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
257	U72900KA2011PTC061117	KIRAZZ TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
258	U15490KA2010PTC054199	DELIGHTO FOODS PRIVATE LIMITED
259	U74999KA2009PTC050254	TRANSWELT LANGUAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
260	U74900KA2014PTC075304	KINGS & PRINCE TRAINING ACADEMY PRIVATE LIMITED
261	U72200KA2011FTC059293	TFO MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
262	U92400KA2015PTC083326	XRT FITNESS PRIVATE LIMITED
263	U74900KA2015PTC084297	SUMVID ONLINE INTERACTIVE PRIVATE LIMITED
264	U51909KA2013PTC070582	BIO-INDIA PHARMA MARKETING PRIVATE LIMITED
265	U01810KA2008PLC047596	ELTEKON APPARELS LIMITED
266	U74140KA2004PTC033697	INSTORE DESIGN (INDIA) PRIVATE LIMITED
267	U74994KA2006PTC039717	SPACE FIT (INDIA) PRIVATE LIMITED
268	U45201KA2008PTC046657	EMAAN ESTATES & PROPERTIES PRIVATE LIMITED
269	U65993KA2008PTC048647	ANANTA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
270	U45209KA2015PTC079562	RIVERA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
271	U74900KA2016PTC085201	OM SWASTHOBHAVA INSTITUTE PRIVATE LIMITED
272	U72901KA2016PTC094997	SYNIO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
273	U85110KA2015PTC079928	PLAKSA HOSPITAL PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
274	U74900KA2013PTC067696	CANIN BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
275	U72200KA2015PTC084099	CAMEOMATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
276	U45205KA2013PTC072374	UNIVA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
277	U72900KA2011PTC059542	LUNSYS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
278	U31401KA2016PTC086651	NUEVO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
279	U15209KA2011PTC060240	CURRY SPRIG FOODS PRIVATE LIMITED
280	U74200KA2008PTC047986	SHANK CONTRACTS & ENGINEERING PRIVATE LIMITED
281	U70100KA2015PTC081419	S K P CIVIL TECH PRIVATE LIMITED
282	U67110KA2013PTC068873	L G & S CAPITAL PRIVATE LIMITED
283	U74994KA2006PTC040105	STYLE FX (BANGALORE) PRIVATE LIMITED
284	U74900KA2015PTC079813	OFFISPAZZIO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
285	U72200KA2009PTC050168	ALTHEA SYSTEMS & SOFTWARE PRIVATE LIMITED
286	U74900KA2014PTC075828	4TEMPS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
287	U72900KA2016OPC096820	DATAMATRIX SYSTEMS (OPC) PRIVATE LIMITED
288	U45200KA2011PTC060765	PRAGATHI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
289	U74999KA2016PTC095607	NISHTA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
290	U74900KA2015PTC078795	ZONE RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
291	U45203KA2005PTC036107	NITESH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
292	U85191KA2015PTC078916	WANAKA HEALTH CARE & RESEARCH PRIVATE LIMITED
293	U85110KA2007PTC044021	INSTITUT D'EXPERTISE CLINIQUE INDIA PRIVATE LIMITED
294	U72200KA2014PTC077400	ZIDIO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
295	U74900KA2014PTC077095	SQUAREBUZZ APPS PRIVATE LIMITED
296	U63090KA2012PTC067212	LES VOYAGES TRAVEL EXPERIENCES PRIVATE LIMITED
297	U24100KA2013PTC070297	BLUE WHALE BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED
298	U74900KA2013PTC071798	SHOPTREE ONLINE RETAIL PRIVATE LIMITED
299	U74900KA2013PTC069898	NPG ANALYTICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
300	U72200KA2007PTC042656	PLAKSHA INNOVATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
301	U70109KA2016PTC096006	TAO VENTURES PRIVATE LIMITED
302	U74210KA1999PTC042119	ANKIT FORGINGS PRIVATE LIMITED
303	U32208KA1994PTC016078	PROLINE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
304	U72200KA2008PTC048115	E-MARGA TECHNOLOGY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
305	U72200KA2010PTC052357	ENTELEKI TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
306	U74900KA2013PTC071316	KARAASHILP CREATIONS PRIVATE LIMITED
307	U72300KA2012PTC065927	PRASHASTE TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
308	U92140KA2014PTC076484	EPICURUS EVENT PRIVATE LIMITED
309	U72900KA2016PTC098404	GRAPHITI XYZ INDIA PRIVATE LIMITED
310	U14200KA2014PTC076920	SIDHIVINAYAK EARTHGEO SERVICES PRIVATE LIMITED
311	U72200KA2015PTC082941	WEBILIZE SOFTWARE DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
312	U74999KA2016PTC095154	GALIUM RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
313	U55102KA1990PTC011177	SUMIDITYA HOTELS PRIVATE LIMITED
314	U73100KA2010PTC054379	ABAX PHARM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
315	U80903KA2009PTC049506	SSQUARE TRAINING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
316	U74140KA2002PTC030130	FLORAISON INDIA COMPLIANCES PRIVATE LIMITED
317	U72200KA2013PTC071641	ULTAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
318	U29299KA2005PTC036047	TBX RESOURCES AND PRODUCTS PRIVATE LIMITED
319	U85110KA1997PTC021894	B.S.M CHITS PRIVATE LIMITED
320	U72200KA2013PTC072183	INGRAPHER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
321	U52590KA2015PTC082211	FOXES DESIGNS PRIVATE LIMITED
322	U72900KA2016PTC094459	DOMINANCE INTERNET PRIVATE LIMITED
323	U72900KA2014PTC074566	INTRAMART INDIA PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
324	U36912KA2010PTC053818	INNOVATIVE THOUGHT WORKS PRIVATE LIMITED
325	U36990KA2013PTC072323	HITECH ANODES PRIVATE LIMITED
326	U72200KA2013PTC069388	BHAVITVA DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
327	U52390KA2014PTC073336	PRICECO RETAIL PRIVATE LIMITED
328	U22120KA2009PTC051889	X8MENT MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
329	U52100KA2016PTC086053	DUFFL FASHION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
330	U74900KA2015PTC084606	COMPARE LAB PRIVATE LIMITED
331	U74900KA2015PTC078174	SHEA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
332	U63040KA2015PTC083462	SHSF LOGISTICS OPTIMIZATION VENTURES PRIVATE LIMITED
333	U72900KA2016PTC092372	ZANMI DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
334	U93090KA2013PTC071692	ARION LAW SERVICES PRIVATE LIMITED
335	U72900KA2015PTC084732	FLYING WHEEL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
336	U72200KA2014PTC076963	ANJANA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
337	U72900KA2004PTC035062	AMATRA INFOTECH PRIVATE LIMITED
338	U18105KA2016PTC093473	BLUMARK FASHION PRIVATE LIMITED
339	U18109KA2016PTC093529	EVOLVEE APPARELS PRIVATE LIMITED
340	U72200KA2014PTC075670	KEMPAMI SYSTEMS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
341	U45201KA2007PTC043321	ROSEMONT REALTY PRIVATE LIMITED
342	U72900KA2003PTC031775	TARTAN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
343	U72200KA2013PTC070867	TIKSHARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
344	U67190KA2008PTC045259	RAJIVM FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
345	U74300KA2008PTC047490	ADJUG MEDIA (INDIA) PRIVATE LIMITED
346	U85110KA2004PTC034720	SWASTIK GENERAL AND HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
347	U72200KA2015OPC081084	DENEBSKY MOBILES PRIVATE LIMITED (OPC)
348	U74300KA1993PTC014502	FACHLEUTE TRADING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
349	U52300KA2011PTC060421	PIQ-A-WAGON.COM PRIVATE LIMITED
350	U72200KA2011PTC060553	PROAPPSYS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
351	U55101KA2011PTC060364	NANDHANA BUDGET HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
352	U55101KA2012PTC061971	NANDHANA HOTELS PRIVATE LIMITED
353	U55101KA2007PTC042464	SREE NANDINI PALACE HOTELS PRIVATE LIMITED
354	U65910KA1982PTC004999	PREMIER SOFTEK INDIA PRIVATE LIMITED
355	U74900KA2014PTC077535	HAWK EYE CCTV PRIVATE LIMITED
356	U85110KA2000PTC028217	HAWKEYE INSTITUTE FOR BETTER VISION PRIVATE LIMITED
357	U74999KA2017PTC105435	PEPPA VENTURES PRIVATE LIMITED
358	U72200KA2012PTC066954	ADITIAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
359	U72200KA2013PTC071630	ISEEDEA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
360	U22219KA2013PTC069699	JUGGLER & KEEPER MEDIA PRIVATE LIMITED
361	U73100KA2012PTC066906	INNOVATIVE SUN TECH PRIVATE LIMITED
362	U72200KA2005PTC037731	INSIGHT TECHNOLOGY PARTNERS PRIVATE LIMITED
363	U74900KA2015PTC078534	PARISKQ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
364	U51109KA2014PTC076540	WORKPLACE FURNITURE PRIVATE LIMITED
365	U74920KA2012PTC065819	CANNEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
366	U36999KA2011PTC059792	ADITHI HARNESS AND ALLIED ACCESSORIES PRIVATE LIMITED
367	U55101KA2012PTC064396	SOSSEGO HOSPITALITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED
368	U80301KA2013PTC072304	SKILLTIPLY LEARNING PRIVATE LIMITED
369	U20101KA1976PTC003020	INDIAN WOODS AND MOULDINGS PRIVATE LIMITED
370	U72200KA2014OPC074843	FEBITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
371	U21000KA2012PTC065224	PRISM PAPER PRIVATE LIMITED
372	U72900KA2005PTC036363	SKILLPROFILER ANALYTICS PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
373	U72200KA2011PTC058436	SHESTRA IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
374	U31100KA2015PTC082529	EAZYRIDE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
375	U74999KA2016PTC094289	KRL CONSULTING PRIVATE LIMITED
376	U00093KA1993PTC015040	MYSORE MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
377	U74140KA2003PTC032021	CIVIL SOCIETY INFORMATION EXCHANGE PRIVATE LIMITED
378	U72200KA2002PTC031106	SOFTPRO SOFTWARE PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
379	U52590KA2012PTC061964	TRICA RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED
380	U85190KA2013PTC068317	SUNETRA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
381	U72200KA2011PTC057391	ATTRIBO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
382	U72200KA2008PTC047790	MIDDLEWARE CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED
383	U34106KA2007PTC041607	ASHOK KHENY MOTORS PRIVATE LIMITED
384	U52339KA2007PTC044416	EUROBASE EXIM PRIVATE LIMITED
385	U74999KA2016PTC097150	OMICORN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
386	U85100KA2008PTC045872	SAI RANGA HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
387	U74900KA2014PTC077257	GETBETTER SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
388	U52590KA2015PTC078904	WOODSHRIKE RETAIL PRIVATE LIMITED
389	U72400KA2011PTC056882	REU CLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED
390	U92190KA2015PTC079816	SPARSE ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
391	U85110KA1997PTC021679	6S EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
392	U24239KA2008PTC046320	DHAM HI PHARMA PRIVATE LIMITED
393	U74900KA2015PTC084894	LYPHOSIS BIOTECH PRIVATE LIMITED
394	U51909KA1995PTC018300	ASWATI PROJECTS PRIVATE LIMITED
395	U72900KA2016PTC093846	CETIRI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
396	U72200KA2014PTC073937	IYANTRAM SOFTSYSTEMS PRIVATE LIMITED
397	U74999KA2017PTC098973	HUSK GREEN TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
398	U72300KA2010PTC054334	IMANAGE TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
399	U93000KA2012PTC066944	DIGLYWOOD ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
400	U70101KA2009PTC050882	VIOLET OCTOBER ENGINEERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
401	U72200KA2015PTC081988	VIKAN INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
402	U51909KA2015PTC083503	EDWARDIAN FASHION PRIVATE LIMITED
403	U45205KA2013PTC072415	WHITELINES DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED
404	U72200KA2013PTC071415	ETHNOTECH IT AND HARDWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
405	U85100KA2010PTC054750	MARIGOLD MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
406	U74900KA2015PTC082586	PROTEOS LABS PRIVATE LIMITED
407	U35301KA2012PTC066719	YANTRA MRO AND AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
408	U74999KA2017OPC102585	J&K TRIP MAKERS (OPC) PRIVATE LIMITED
409	U70200KA2016OPC094828	JUSTCOMMERCIAL.IN PRIVATE LIMITED (OPC)
410	U80301KA2010PTC052448	KAUTILYA VIDYALAYA PRIVATE LIMITED
411	U29307KA2009PTC050551	GLOBAL METTLE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
412	U74999KA2017PTC101963	SEICHO SEEDS PRIVATE LIMITED
413	U74140KA2015PTC080785	BCAPITALFINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
414	U74900KA2015PTC081379	BEECAPITALS FOREX TRADING PRIVATE LIMITED
415	U13205KA2015OPC078461	TRAPEZA BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED (OPC)
416	U74900KA2008PLC045740	VOLUNTAS FOOD PARKS (INDIA) LIMITED
417	U13100KA1981PTC004509	VISHAL MINERALS PRIVATE LIMITED
418	U72400KA2008PTC048086	VERTICAL LEARNING CONSULTANTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
419	U45202KA1993PTC014015	GUDAGUNTI PROJECTS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
420	U85110KA2000PLC027819	ACROPETAL ANIMEDIA LIMITED
421	U74999KA2013PTC068558	KAYAKA MEDIA PRIVATE LIMITED
422	U55101KA2012PTC067268	ARIANNA FNB PRIVATE LIMITED



Sl.No.	CIN	Company Name
423	U45203KA2015PLC082367	GRASSROOTIN INFRA ENERGY LIMITED
424	U11100KA2012PTC063712	GREEN POLYMER ENERGIES PRIVATE LIMITED
425	U74900KA2011PTC057694	SPONSORSHIP MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
426	U85110KA2013PTC070019	LUMITIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
427	U51399KA2003PTC033046	NAVAGEN MARKETING PRIVATE LIMITED
428	U72900KA2017PTC102817	KARTIFY LABS PRIVATE LIMITED
429	U51505KA2003PTC032006	SYRATRON TRADE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
430	U74999KA2017PTC099360	EVLOGIA PRIVATE LIMITED
431	U72300KA2004PTC033628	TALENTSERV SERVICES PRIVATE LIMITED
432	U74999KA2016PTC098697	CQT INDIA PRIVATE LIMITED
433	U92490KA1994PTC016204	ANNLEELA COMMUNICATIONS PVT LTD
434	U29308KA2013PTC072730	MACROSE INFRA INDIA PRIVATE LIMITED
435	U70102KA2007PTC043965	NIVIS HOLDING PRIVATE LIMITED
436	U80302KA2000PTC028291	INDIAN SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
437	U01403KA2015PTC083889	ICF AGRITECH PRIVATE LIMITED
438	U70109KA2007PTC041766	FEATHERLITE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
439	U36103KA2011PTC058733	MARMON FEATHERLITE RETAIL FIXTURES PRIVATE LIMITED
440	U72400KA2000PTC028049	SAMW TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
441	U72200KA2000PTC026787	TARGET BUSINESS PARK PRIVATE LIMITED
442	U74994KA2005PTC036155	VELLAL INTERARC PRIVATE LIMITED
443	U74900KA2014PTC075579	DEALYOURSELF INTERNET PRIVATE LIMITED
444	U74900KA2015PTC084949	CLINEKART SUPPLIES PRIVATE LIMITED
445	U72200KA2007PTC042672	TELEBASE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
446	U85110KA2005PTC037134	KADAMBI SUPERGAMMA CANCERCARE PRIVATE LIMITED
447	U72200KA2012PTC065850	ROYALE CHEESE PRIVATE LIMITED
448	U72200KA2015PTC082081	OORJIT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
449	U72900KA2017OPC100892	CEYON TECH (OPC) PRIVATE LIMITED
450	U29120KA2007PTC043530	REMOTE CONTROL MICROFINISH ACTUATORS PRIVATE LIMITED
451	U55101KA2010PTC055502	WINFINITY HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
452	U01549KA1984PTC006438	ASS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
453	U72200KA2015PTC078993	PEOPLEBRIDGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
454	U93090KA2014OPC076602	ZSQUARES SIGNATURE EVENTS PRIVATE LIMITED (OPC)
455	U85110KA1991PLC012654	CHEMBRA ORCHARD PRODUCE LIMITED
456	U74900KA2014OPC076780	BRICOLE CONSULTING PRIVATE LIMITED (OPC)
457	U92410KA2015PTC080491	RSP SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
458	U74900KA2016PTC086922	SPRITZ FINE FOOD PRIVATE LIMITED
459	U74900KA2015PTC079577	PURPLEPATH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
460	U15400KA2010PTC054233	PACE AGROTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
461	U01300KA2010PTC054249	PACE ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
462	U72300KA2011PTC058609	PRAGMATIC CYBERNETIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
463	U74900KA2010PTC054681	GYAN MANTRA MARKETING PRIVATE LIMITED
464	U32107KA2008PTC047346	CYBERNETIC RESEARCH LABS PRIVATE LIMITED
465	U26990KA2013PTC068998	KARIZMA TILES PRIVATE LIMITED
466	U72900KA2016PTC095260	HELLOTAPS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
467	U31909KA1993PTC014235	DEVI MOVING SPARES PRIVATE LIMITED
468	U31907KA2007PTC043305	PROTECT BHARAT SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
469	U72200KA2006PTC038503	METRICA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
470	U72200KA2016PTC085095	BEEZER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
471	U65100KA2008PTC045405	VIVIENDA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
472	U74900KA2013PTC069235	TP&S MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Sl.No.	CIN	Company Name
473	U45205KA2013PTC072041	MAA SAFE RESIDENCE INDIA PRIVATE LIMITED
474	U31909KA2007PTC043671	MANTHAN SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED
475	U72200KA2007PTC044586	TRC INFOTEK PRIVATE LIMITED
476	U45202KA2013PTC068198	CATALYST AFFORDABLE HOUSING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
477	U29248KA2015PTC082115	PRO-SERVE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
478	U72900KA2009PTC051069	MED TAARA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
479	U45202KA2009PTC049105	MNG CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
480	U74900KA2015PTC078535	NUKLEO HANDYMAN SERVICES PRIVATE LIMITED
481	U72200KA2014PTC073974	PROSCOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
482	U25200KA2013PTC072367	MAINI PLASTICS AND AUTOCOMPONENTS PRIVATE LIMITED
483	U40109KA2012PTC064458	ILEX POWER INDIA PRIVATE LIMITED
484	U74900KA2008PTC045803	KROR EXPORTS PRIVATE LIMITED
485	U74999KA2016PTC092592	ANITRA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
486	U72200KA2013PTC071751	JOMOSOFT CONSULTING PRIVATE LIMITED
487	U55101KA2016PTC093572	KRISHNA PARADISE PRIVATE LIMITED
488	U45205KA2011PTC059963	EMIRATES INDIA PRECAST PRIVATE LIMITED
489	U74900KA2015PTC082510	GREENSPACE FACILITIES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
490	U72200KA2016PTC085342	THINKSCALE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

C.V.SAJEEVAN  
Registrar of Companies  
Karnataka

Pune-411044, the 14th January 2019

No. ROCP/Rule 37(3)/STA/2018/3174—LLPs struck off from the register of Registrar of Companies, Pune under Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009.

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
1.	AAH-0894	SHUDH DESI FARM LLP
2.	AAF-4095	CLONE MANUFACTURERS LLP
3.	AAB-3039	SWAPNAPURTI ENTERPRISES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
4.	AAG-1866	TECH4TRON ELECTRONICS LLP
5.	AAG-7975	AMBIKA LANDMARKS LLP
6.	AAF-8788	AMBIKA LIFESPACES LLP
7.	AAG-4234	WEVA FASHIONS LLP
8.	AAJ-6218	YOGMUDRA ISOURCE LLP
9.	AAH-8197	BIZZATT CONSULTING LLP
10.	AAJ-0136	TRAVFIN SERVICES LLP
11.	AAF-1209	LUMINESCENT LIFESTYLES LLP
12.	AAF-1501	MADHUPUSHP FOODS LLP
13.	AAJ-6599	CREATIVES LAWNS LLP
14.	AAB-3780	GA GREEN POWER LLP
15.	AAA-0409	IAURO TECHNOLOGIES LLP
16.	AAB-1476	ANANTCHAYA HOTELIERS AND TRAVELLERS LLP
17.	AAF-7110	EKLAKSHYA R&D ACADEMY PUNE LLP
18.	AAB-6491	HAP INFOTECH LLP
19.	AAG-1687	PEPPERMINT FOODS & BEVERAGES LLP
20.	AAH-8977	UNICARE MULTISPECIALTY HOSPITAL LLP
21.	AAD-6079	MARCA VISUAL COMMUNICATIONS LLP
22.	AAG-5597	AVS ADVANCED VERSATILE SOLUTIONS LLP
23.	AAF-1032	BUNNY SUPER MART LLP

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
24.	AAG-4488	CHANDAN MULTIPURE SYSTEMS LLP
25.	AAD-1260	BLACKOWLS FOOD EXPRESS LLP
26.	AAC-3384	SIGNET HOUSING LLP
27.	AAE-1038	S-CUBE SECURITY SERVICES LLP
28.	AAB-0674	CADENCE BUSINESS CONSULTING LLP
29.	AAJ-6603	DOCTOR'S DAIRY LLP
30.	AAJ-9462	RIVAA ART AND CRAFTS LLP
31.	AAB-2509	COSMIC PANDA PRODUCTIONS LLP
32.	AAH-1359	ASIAN INNOVATIVE VENTURES LLP
33.	AAJ-5012	AAMS IMPORT AND EXPORT LLP
34.	AAC-9342	RENUTECH GREEN ENGINEERING LLP
35.	AAJ-9976	GS AGRO SALES & SERVICES LLP
36.	AAB-7353	ADISSHRE DEVELOPERS LLP
37.	AAC-8631	GANGA GREEN AGRO INDUSTRIES LLP
38.	AAE-7826	SIDDHIVINAYAK PERFECT INFRA CREATIONS LLP
39.	AAJ-7768	MARC BUSINESS ADVISORY LLP
40.	AAA-7316	TANTUM IT SERVICES LLP
41.	AAE-5346	FRESH TO EAT HOSPITALITY LLP
42.	AAE-5560	SWADHYAY TECHNOLOGIES LLP
43.	AAA-5302	TESSEL INNOVATIONS LLP
44.	AAG-2829	GO-GREEN COLD STORAGE LLP
45.	AAJ-0651	JB CROP SCIENCES LLP
46.	AAI-6638	PURPLE ONYX EXPORTS LLP
47.	AAB-2929	ARC-MAESTRO HOUSING LLP
48.	AAB-0966	APAAR REAL ESTATE ADVISORS LLP
49.	AAB-5701	RADITIS ENERGY LLP
50.	AAC-5176	SNV OVERSEAS EXIM LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
51.	AAD-0506	HARINARAYAN HEALTHCARE AND INFO LLP
52.	AAE-9235	SINETECH SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
53.	AAF-9556	REDISYS TECHNOLOGIES LLP
54.	AAJ-6296	DEVELOPMENT PLANNERS & VALUERS LLP
55.	AAG-0782	TRIP2LEARN TOURISM LLP
56.	AAB-7368	ESOTERIC LIFE SOLUTIONS LLP
57.	AAH-4399	VOXXUS ENTERPRISES LLP
58.	AAC-8911	YASHDA VASTU NIRMITEE LLP
59.	AAJ-4115	ADHIRA ACADEMIC VENTURES LLP
60.	AAF-8450	EARLY BIRDS CHILDCARE SERVICES LLP
61.	AAJ-4817	QUALITY MANUFACTURING AND TECHNICAL SERVICES LLP
62.	AAF-3704	FOODEATERS CUISINE LLP
63.	AAF-8142	EDELFINO TECHNOLOGIES LLP
64.	AAI-8471	PLANUREVENT MANAGEMENT LLP
65.	AAH-5661	ANTARNAAD CREATIVE SOFTWARE SOLUTIONS LLP
66.	AAD-5434	SHREE FOOD FARMAISH LLP
67.	AAH-1529	ABHANG PLACEMENT AND HR SERVICES LLP
68.	AAC-0213	BIZKART BUSINESS SOLUTIONS LLP
69.	AAG-6136	SPURS INTERNATIONAL LLP
70.	AAF-3324	ASAP INTERIORS LLP
71.	AAF-6573	GRANADIER IT SERVICES LLP
72.	AAE-9458	ELIXIR INTERNET LLP
73.	AAJ-8589	PATIL KHATRI & CO LLP

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
74.	AAG-7773	KAILASNATH INNOVATIVE SYSTEMS LLP
75.	AAG-4482	VIDYASANKUL IT SOLUTIONS AND CONSULTANTS LLP
76.	AAH-2156	SWAT CAR CARE SERVICES LLP
77.	AAF-1921	MECHWORLD DESIGN SOLUTIONS LLP
78.	AAB-8780	GETWELL SOONER HEALTHCARE SERVICES LLP
79.	AAH-6005	WORSHIP RESOLUTION SERVICES LLP
80.	AAD-1222	AUTUMN LANDMARKS LLP
81.	AAF-6563	INFYDIGI TECHNOLOGIES LLP
82.	AAH-5005	BIZZTYM TECH LLP
83.	AAH-3565	INDRADEEP BUILDCON LLP
84.	AAJ-5550	LANCIATOR CONSULTANCY SERVICES LLP
85.	AAI-7344	SABER ENERGY SYSTEMS LLP
86.	AAA-8983	ACHALKAR TATOOSKAR PROPERTIES LLP
87.	AAH-8611	3S SPORTS LLP
88.	AAF-5439	ARAMBH TOOLINGS LLP
89.	AAB-5486	EAST WEST CARTEL (EWC) TECHNOLOGIES LLP
90.	AAJ-4116	SCALE SUN AND SAND LLP

P.S. KHADE  
Asstt. Registrar of Companies  
Pune